



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23—सितम्बर 29, 2006 (आश्विन 1, 1928)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23—SEPTEMBER 29, 2006 (ASVINA 1, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2006

संख्या, 459 दिनांक 28 अगस्त 2006—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह मंत्रालय के तदर्थ आधार पर कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 25.07.2006 (पूर्वाह्न) से 31.12.2006 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :-

(i) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) तदर्थ आधार पर यह व्यवस्था जब तक जारी रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध न हो जाएं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियमित अनुभाग

अधिकारियों के उपलब्ध होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन नियमित अनुभाग अधिकारियों को आबंटित अपने-अपने संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तदर्थ आधार पर कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

क्र. सं. अधिकारियों के नाम

- | क्र. सं. | अधिकारियों के नाम |
|----------|-------------------|
| | सर्वश्री |
| 1. | एस.के. बिसवास |
| 2. | मौहम्मद इदरीस |
| 3. | एन.के. कालरा |
| 4. | कमल किशोर |
| 5. | पी.एस. ओबरॉय |

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मई, 2006 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस-2 के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री नंद किशोर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 03 जुलाई 2006 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर 2006 तक या नियमित

अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी, पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री नंद किशोर को तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

वी. सरस्वती, उप सचिव

सेना शाखा

सं. 460, दिनांक 31 अगस्त 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लै. के पद पर

निम्नलिखित 202 अधिकार्यों ने अल्प सेवा आयोग छः मास का समय जो कि 17 सितम्बर 2005 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 17 सितम्बर 2005 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पाँच वर्षों के लिए विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अंतर्गत प्रदान किया जाता है :-

एस एस नं., नाम और आर्म/सर्विस

(41512एफ) विजेन्द्र सिंह यादव, मैक

(41513के) सुधीर गुलिया, मैक

(41514एम) भास्कर राई, इन्फैन्ट्री

(41515सी) पंकज कुमार रावत,

(41516एक्स) के के सतीश, एएडी

(41517ए) रोहित जाखड़, एसी

(41518एच) सोजन ओटी, आर्टी

(41519एल) ऋषि तिवारी, इन्फैन्ट्री

(41520ए) त्रिपुरारी सिंह, इंजीनियर

(41521एच) रोहित सिंह सांगवान, मैक

(41522एल) कनिष्का बालियान, इन्फैन्ट्री

(41523एन) कृष्ण कान्त बाजपेई, इन्फैन्ट्री

(41524डब्ल्यू) राहुल कसाना, इन्ट

(41525वाई) जे गौरव शर्मा, आर्टी

(41526एफ) मंगोलशेम विक्रम सिंह, एएडी

(41527के) त्रिवेदी निशीथ जयन्तीलाल, आर्टी,

(41528एम) सन्तोष कुमार भरभौरिया, इन्फैन्ट्री

(41529पी) मधुसुदन बी एस, आर्टी

(41530के) हरजीत सिंह संग्रा, मैक

(41531एम) धर्मवीर सिंह चौहान, आर्टी

(41532पी) संदीप कुमार, एसी

(41533एक्स) रविन्द्र सिंह रावैड़, इएमई

(41534ए) पाठक अदीत्यवर्दन राजीव, इन्फैन्ट्री

(41535एच) राजपाल, आर्टी

(41536एल) देशपांडे अनिरुद्ध बालकृष्ण, आर्टी

(41537एन) शमशेर सिंह, इंजीनियर

(41538डब्ल्यू) अरूण कुमार एम एस, आर्टी

(41539वाई) जगमोहन मेहरा, इन्फैन्ट्री

(41540एन) सौरभ समीर, इन्फैन्ट्री

(41541डब्ल्यू) दीपक भरद्वाज, एसी

(41542वाई) आनन्द सिंह, इन्फैन्ट्री

(41543एफ) विपुल शर्मा, आर्टी

(41544के) मोहित दुबे, एसी

(41545एम) गिरीश ठाकुर, आर्टी

(41546पी) किसलय सिंह, आर्टी

(41547एक्स) अम्बारीश महान्ता, इन्फैन्ट्री

(41548ए) वैभव वडेरा, इन्फैन्ट्री

(41549एच) सौरभ शर्मा, एएडी

(41550एक्स) कपिल शर्मा, इएमई

(41551ए) पवन कुमार बोहरा, इन्फैन्ट्री

(41552एच) महिपाल सिंह, एओसी

(41553एल) लक्ष्य प्रताप सिंह शेखावत, मैक

(41554एन) उदयन प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

(41555डब्ल्यू) दुष्यंत, मैक

(41556वाई) रणजीत सिंह पवार, इन्फैन्ट्री

(41557एफ) सुदीप सिंह, मैक

(41558के) रजनीश पांडेय, इन्ट

- (41559एम) सुशील कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41560एफ) लक्ष्मण सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41561के) हेमन्त मेहता, इन्फैन्ट्री
 (41562एम) इन्द्रजीत सुरेश राव जाधव, इन्फैन्ट्री
 (41563पी) तरनदीप सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
 (41564एक्स) संजीव जी, इंजीनियर्स
 (41566एच) राजिन्द्र जीत सिंह, आर्टी
 (41567एल) राजेश नारायणन, आर्टी
 (41568एन) कुलदीप कुमार, इन्फैन्ट्री
 (41569डब्ल्यू) अंकुश प्रताप, इन्ट
 (41570एल) विनोद विश्वनाथ, इन्फैन्ट्री
 (41571एन) जोशी जयदेव रजनीकांत, आर्टी
 (41572डब्ल्यू) जगदीश सिंह सामन्त, एसी,
 (41573वाई) मुकेश चन्द्र, इन्फैन्ट्री
 (41574एफ) दरेकर दिग्विजय दत्तात्रय, इन्फैन्ट्री
 (41575के) नितेश सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41576एम) रोईन लेसली ब्रास, इन्फैन्ट्री
 (41577पी) आकाश शर्मा, आर्टी
 (41578एक्स) अवधेश चौधरी, इन्फैन्ट्री
 (41579ए) मुकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (41580पी) निकुतो असूमी, इन्फैन्ट्री
 (41581एक्स) रणजीत सिंह, एसी
 (41582ए) अजीत कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री
 (41583एच) आनन्द बहुगुणा, एसी
 (41584एल) निखिल झोपे, आर्टी
 (41585एन) आर भारती इलानो, इन्फैन्ट्री
 (41586डब्ल्यू) देवेन्द्र कुमार भगत, इन्फैन्ट्री
 (41587वाई) शेदटी संदीप शेखर, इन्फैन्ट्री
 (41588एफ) एस टी बाइते, इन्फैन्ट्री
 (41589के) चिंथाम बुधेश्वर सिंह, आर्टी
 (41590वाई) सौरभ गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (41591एफ) अर्नब बैनर्जी, आर्टी
 (41592के) मनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41593एम) संदीप कौशल, इन्फैन्ट्री
 (41594पी) देवेन्द्र सिंह, आर्टी
 (41595एक्स) सुमन गांधी गाराबन्तुला, इन्फैन्ट्री
 (41596ए) पटेल गोपीनन्दन दिनेश कुमार, इन्ट
 (41597एच) जितेन्द्र नरुका, इन्फैन्ट्री
 (41598एल) जी सेन्थिल नाथन, इन्फैन्ट्री
 (41599एन) विवेक कुमार शर्मा, एसी
 (41600एक्स) अभिनव गनंबथ, आर्टी
 (41601ए) सुकान्त कृष्ण जोशी, इन्फैन्ट्री
 (41602एच) सुरेन्द्र एस, इन्फैन्ट्री
 (41603एल) फिलिक्स अनौल्ड एफ, इन्फैन्ट्री
 (41604एन) मनीष ध्यानी, इन्फैन्ट्री
 (41605डब्ल्यू) गौरव ए पगनीस, इन्फैन्ट्री
 (41606वाई) संदीप कुमार शर्मा, ईएमई
 (41607एफ) शैवाल श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 (41608के) कृष्ण भण्डारी, इन्ट
 (41609एम) रजत वाली, आर्टी
 (41610एफ) प्रवीन त्रिपाठी, आर्टी
 (41611के) अक्षय लाम्बा, एसी
 (41613पी) मानविजय सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41614एक्स) जतिन शर्मा, एएससी
 (41615ए) पियुश कुमार क्षत्री, आर्टी
 (41616एच) ज्योति स्वरूप पानीग्रही, आर्टी
 (41617एल) राजिन्द्र सिंह, आर्टी
 (41618एन) निखिल धवन, इन्फैन्ट्री
 (41619डब्ल्यू) कुलदीप सिंह चन्दी, इन्फैन्ट्री
 (41620एल) सौरभ गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (41621एन) विकास काधान, इन्ट
 (41622डब्ल्यू) धनताज सिंह, एसी
 (41623वाई) अनिल कुमार चाहर, इन्ट
 (41624एफ) हिम्मत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (41625के) आशीष झा, एसी
 (41626एम) रजत कुमार विरमान, इन्फैन्ट्री
 (41627पी) आदित्य आर झणाणे, इन्फैन्ट्री
 (41628एक्स) जोनाथन ऐलेग्जेंडर, इन्फैन्ट्री

| | |
|---|---|
| (41629ए) के एन थिम्मैया, आर्टी | (41665एल) गौतम जैसवाल, इन्फैन्ट्री |
| (41630पी) सचिन भटनागर, आर्टी | (41666एन) सुनील कुमार, आर्टी |
| (41631एक्स) अमित यादव, आर्टी | (41667डब्ल्यू) राजेन्द्र नेगी, इन्फैन्ट्री |
| (41632ए) सूरज भान सिंह, आर्टी | (41668वाई) सौबग चलाम्बा, इन्फैन्ट्री |
| (41633एच) निर्वाण वाजपेई, एसी | (41669एफ) प्रदीप कुमार यादव, एएडी |
| (41635एन) चन्द्रशेखर यादव, आर्टी | (41670डब्ल्यू) अर्जुन सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री |
| (41636डब्ल्यू) वरूण कुमार, आर्टी | (41671वाई) अजीत पाल सिंह, इन्फैन्ट्री |
| (41637वाई) सौरभ बाली, इन्फैन्ट्री | (41672एफ) प्रवीण आर, एएडी |
| (41638एफ) गौरव पाण्डेय, इन्फैन्ट्री | (41673के) विकास गुलेरिया, इन्फैन्ट्री |
| (41639के) रसाल अभिजीत चारुदत्त, इंजी. | (41674एम) आरेकर मयूर मनोहर, इन्फैन्ट्री |
| (41640वाई) मयंक गुप्ता, इन्फैन्ट्री | (41675पी) हेमेश वासुदेवा, इन्फैन्ट्री |
| (41641एफ) गोलवेलकर हेमांग कमलाकर, इन्फैन्ट्री | (41676एक्स) रोशन कृष्णप्पा, इन्फैन्ट्री |
| (41642के) राज शोबी शम्मी, इन्फैन्ट्री | (41677ए) शशांक शेखर, इन्फैन्ट्री |
| (41643एम) विनीत शेखर प्रेम, इन्फैन्ट्री | (41678एच) अक्षय दीप शर्मा, इंजी. |
| (41644पी) दीपक वैष्णव, इन्ट | (41681एच) केसरी लाल भट्टाचार्य, इन्ट |
| (41645एक्स) यज्ञेन्द्र सिंह परमार, इन्फैन्ट्री | (41682एल) नवीन चौहान, इन्फैन्ट्री |
| (41646ए) गौरव कुन्डू, इन्फैन्ट्री | (41683एन) अमित कुमार शुक्ला, आर्टी |
| (41647एच) रोहित मिश्रा, इन्फैन्ट्री | (41684डब्ल्यू) सी अरविंद रेड्डी, इन्फैन्ट्री |
| (41648एल) विश्वासराव प्रशान्त प्रकाश, इन्फैन्ट्री | (41685वाई) सुरेश कुमार दे, आर्टी |
| (41649एन) पी मनीष, इन्फैन्ट्री | (41686एफ) आशुतोष रंजन कार, आर्टी |
| (41650एच) गगनदीप सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री | (41688एम) स्टीफन आनन्द ए, आर्टी |
| (41651एल) सुबोध सूदन, मैक | (41689पी) चन्द्रसेनन बी आर, इन्फैन्ट्री |
| (41652एन) निरंजन सिंह देवल, इन्फैन्ट्री | (41690के) नवीन कुमार जी, आर्टी |
| (41653डब्ल्यू) रवालकर स्वप्निल शिवाजी, इंजी. | (41691एम) रोहित कुमार दलाल, एओसी |
| (41654वाई) जिमी जेम्स, इन्फैन्ट्री | (41692पी) प्रतीप गुप्ता, इंजीनियर्स |
| (41655एफ) रमन अधिकारी, इन्फैन्ट्री | (41693एक्स) शिव नारायण शुक्ला, इंजी. |
| (41656के) शशी कुमार के एस, एएडी | (41694ए) कुलकर्णी ओंकार किशोर, आर्टी |
| (41657एम) रवि चारण, एसी | (41695एच) रूद्रशीष पाण्डे, आर्टी |
| (41658पी) मनोहर दियाली, मैक | (41696एल) रणदिवे संदीप नंदकुमार, आर्टी |
| (41659एक्स) सकून, एसी | (41698डब्ल्यू) आभिलाष के एम, इन्फैन्ट्री |
| (41660एम) ब्लेसन के डेनियल, एएडी | (41699वाई) तन्मय राहा राय, इन्फैन्ट्री |
| (41661पी) अजय कुमार भारद्वाज, आर्टी | (41700एच) अवनीष पी सिंह, आर्टी |
| (41662एक्स) आढाव सचिन जगन्नाथ, ईएमई | (41701एल) करन नारंग, एसी |
| (41663ए) मिश्र नितिन कुमार, आर्टी | (41702एन) रूपक राधाकृष्णन, इंजीनियर्स |
| (41664एच) अर्जुन कपूर, एसी | |

(41703डब्ल्यू) हरप्रीत सिंह वालिया, एएससी
 (41704वाई) सुदीप सिंह, आर्टी
 (41705एफ) चंदन खरयाल, आर्टी
 (41706के) रिन्वी अश्विन एस, इन्फैन्ट्री
 (41708पी) टी संतोष, इंजी.
 (41709एक्स) दुसे अमोल प्रभाकर, एएडी
 (41710एम) राहुल देव, इन्फैन्ट्री
 (41711पी) दिग्विजय जुयाल, इन्फैन्ट्री
 (41712एक्स) राहुल बघेल, ईएमई
 (41713ए) प्रदीप सिंह गोहिल, एसी
 (41714एच) रणजीत कुमार झा, मैक
 (41716एन) शंकरपति बनर्जी, आर्टी
 (41717डब्ल्यू) दीपक सुयाल, इन्फैन्ट्री
 (41718वाई) अद्वित पटनायक, इन्फैन्ट्री
 (41721वाई) विश्वनाथ मुखर्जी, इन्फैन्ट्री
 (41722एफ) विनायक जे एस, इन्फैन्ट्री
 (41723के) प्रसाद एस रघुनाथ आर श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री
 (41724एम) रोहित अत्रे, इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि 17 सितम्बर 2005 को शुरू हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 17 सितम्बर 2005 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत लै. के पद पर पाँच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :—

डब्ल्यू एस नं., नाम और आर्म/सर्विस
 (01070एल) लक्ष्मी एस, एएससी
 (01071एन) नूतन छिल्लर, एएससी
 (01072डब्ल्यू) प्रज्ञा पैन्थूली, एओसी
 (01073वाई) एम आर भवानी, एएससी
 (01074एफ) क्रान्ति, एएससी
 (01075के) हरजीत कौर,, एईसी
 (01076एम) भोजने रेणुका शशिकांत, एएससी
 (01077पी) सोनी मारिया जोसफ, एएससी
 (01079ए) गुरप्रीत कौर, जेएजी
 (01080पी) जशन धालीवाल, एएससी
 (01082ए) प्रीति शर्मा एएडी
 (01083एच) सुस्मिता चक्रवर्ती, एएससी

(01086डब्ल्यू) अमृता सिंह, एओसी
 (01089के) श्वेता शर्मा, एओसी
 (01090वाई) शिप्रा मिश्रा, एईसी
 (01091एफ) प्रेरणा दुबे, एएडी
 (01093एम) सिमता कोतवाल, एओसी
 (01094पी) जे सोफिया, एओसी
 (01096ए) अंकिता श्रीवास्तव, एएससी
 (01097एच) संध्या के, एएससी
 (01099एन) नेहा गोयल, इन्
 (01101ए) चन्द्र प्रभा, एएससी
 (01102एच) दीप शिखा सिंह, एएडी
 (01103एल) बिन्दु शर्मा, इंजी.
 (01106वाई), चौदनी वासुदेव, एओसी
 (01107एफ) ए अनुपमा, एएससी
 (01108के) ज्योति सिंह, एईसी
 (01109एम) प्रभा बिष्ट, एईसी
 (01110एफ) रूपा सी, एओसी
 (01111के) व्यास पूजा पूंडरीक भाई, एओसी
 (01114एक्स) जूली, एएडी
 (01116एच) एच ललनुन्सॉई, इन्
 (01117एल) महालक्ष्मी एम, एएडी
 (01118एन) नोशी थापर, एओसी
 (01119डब्ल्यू) दिव्या सिंह, एईसी
 (01121एन) तनवी गुप्ता, एओसी
 (01123वाई) लवलीन कौर मान, जेएजी
 (01124एफ) अपेक्षा पठनिया, जेएजी
 (01125के) गर्विता सिंह कुशवाह, एओसी
 (01126एम) पी प्रवीणा, ईएमई
 (01129ए) पूनम कौर, एएससी
 (01131एक्स) लोपामुद्रा साहु, एओसी
 (01132ए) इन्दरप्रीत कौर, इन्
 (01134एल) बलजीत कौर, एएससी
 (01136डब्ल्यू) झिलमिल मुखर्जी, एओसी

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) लै. के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष

सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत 17 सितम्बर 2005 से पाँच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2003 से वेतन तथा प्रोन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत वरीयता प्रदान की जाती है।

डब्ल्यू एस नं., नाम, विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि एवं आर्म/सर्विस

- (01078 एक्स) वन्दना नारायणन 04 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01081 एक्स) श्वेता ढींगरा 04 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01084 एल) निरूपमा देव दत्त कोपिकर 04 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01085 एन) ममता गुप्ता 04 अप्रैल 2005, सिग्नल
 (01088 एफ) अपर्णा ऐयर 04 अप्रैल 2005, सिग्नल
 (01092 के) पूजा रौतेला 04 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01095 एक्स) रूचि 04 अप्रैल 2005, सिग्नल
 (01098 एल) भेंडवडे मेघना ब्रह्मकांत 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01105 डब्ल्यू) कौसकिया शाविका रमेश 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01112 एम) गीतांजली सानन 11 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01113 पी) लीनी श्रीवास्तव 04 अप्रैल 2005, सिग्नल
 (01115 ए) मधु राणा 11 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01120 एल) पल्लवी श्रीवास्तव 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01122 डब्ल्यू) सालविया एन पिल्लै 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01127 पी) मनमीत कौर 04 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01128 एक्स) शिल्पी खनका 11 अप्रैल 2005, सिग्नल
 (01130 पी) दिव्या नायर 11 अप्रैल 2005, ई एम ई
 (01133 एच) दीप्ति विज 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01135 एन) चौहान मेघना दीपक 10 अप्रैल 2005, इंजीनियर
 (01137 वाई) फ्लोरा फ्रेड्रिक लाल 11 अप्रैल 2005, इंजीनियर

एस के शर्मा
 ले. कर्नल
 सहायक सेना सचिव 8बी

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 461, दिनांक 31 अगस्त 2006:--राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1108/जी एस (एक्स)/डी ई एस/02 दिनांक 09 मई 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

सब-ले., के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

- सब ले. दीपेश त्यागी (05297-एन), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. एस श्रीकान्त (05298-आर), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. अविनाश बलवाडा (05300-डब्ल्यू), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. विवेक शर्मा (05302-जेड), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. गौरव मिश्रा (05304-बी), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. अमित मेहन (05305-एफ), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. विनय राणा (05306-एच), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

वी एस स्लाथिया

कमांडर

जे डी एम पी आर

(आर एंड आर)

सं. 462, दिनांक 28 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, इस समय स्थानापन्न तदर्थ अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की नियुक्ति 27 जून 2006 से 30 जून 2006 तक अथवा मूल आवेदन संख्या 1295/2006 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा यथानिर्देशित अनुभाग अधिकारियों की "यथास्थिति" हटाए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर आगे बढ़ाते हैं:--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और
- तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में यथाविहित भर्ती के सामान्य माध्यमों से नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

क्रम अधिकारियों का नाम

सं.

1 2

सर्वश्री

- ओम प्रकाश जोशी
- श्रीमती के. सरस्वती
- धर्म प्रकाश-2
- वी. के. कौड़ा
- श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता

| 1 | 2 |
|-----|----------------------|
| 6. | डी. आर. साहू |
| 7. | एस. के. पांडे |
| 8. | श्रीमती सुषमा रानी |
| 9. | विनोद कुमार |
| 10. | बी. एम. पटनायक |
| 11. | श्रीमती संतोष कुमारी |
| 12. | ए. के. सिंह |
| 13. | श्रीमती निर्मल छबड़ा |
| 14. | ए. के. सक्सेना |
| 15. | इतवारी लाल |
| 16. | दिनेश चन्द्र शर्मा |
| 17. | एस. दास |
| 18. | एस. एन. अग्रवाल |
| 19. | श्रीमती भागवन्ती |
| 20. | डी. पी. तंवर |
| 21. | पी. बी. एस. दिनकर |
| 22. | शशिधरण नायर एन. |
| 23. | के. के. शर्मा |
| 24. | शंकर गांगुली |
| 25. | बाल किशन गुप्ता |
| 26. | जे. पी. असवानी |
| 27. | वी. पी. सिंह |
| 28. | कृष्णा प्रसाद |
| 29. | श्रीमती चन्द्र कांता |
| 30. | श्रीमती कांता कामरा |
| 31. | जे. बी. गुप्ता |
| 32. | आर. एस. डबास |
| 33. | के. सी. उप्रेती |
| 34. | एस. के. मल्होत्रा |
| 35. | रमेश गोयल |
| 36. | कुमार प्रणव |
| 37. | जोगिन्दर कुमार |
| 38. | वी. के. रमनानी |
| 39. | डी. के. चोपड़ा |
| 40. | सतीश कुमार |
| 41. | श्रीमती गीता महाजन |
| 42. | सुरेन्द्र कुमार |
| 43. | रतन सिंह |
| 44. | यशपाल |
| 45. | शेख मोइद्दीन एम. |

| 1 | 2 |
|-----|-----------------|
| 46. | श्याम स्वरूप |
| 47. | डी. सुदर्शन राव |
| 48. | एच. आर. बत्रा |
| 49. | वी. तनबालन |
| 50. | जी. सी. शर्मा |

बी. सरस्वती
उप सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 463, दिनांक 31 अगस्त 2006--निम्नलिखित कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल का मानद रैंक प्रदान कर उन्हें उनके नाम के सामने लिखे संबंधित विश्वविद्यालय का कर्नल कमांडेन्ट नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय में उनके कुलपति पद पर आसीन रहने की अवधि तक मान्य होगी :--

| क्रम सं. | कुलपति का नाम | विश्वविद्यालय का नाम | कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख |
|----------|--|---|-----------------------------------|
| 1. | प्रो. (डॉ.) सिन्धिया पांडया, कुलपति | मनोमनियन सुंदरार विश्वविद्यालय, तिरुनल्वेल्ली, तमिलनाडु | 10 मार्च 2005 |
| 2. | प्रो. राम प्रकाश सिंह, कुलपति | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 06 जनवरी 2005 |
| 3. | डॉ. रमेशचन्द्र जी कोठारी, कुलपति | वीर नर्मद साऊथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात | 22 जून 2005 |
| 4. | आर सेतुरमण, कुलपति | षण्मुख कला, विज्ञान, तकनीक एवं अनुसंधान अकादमी (सास्त्रा) समविश्वविद्यालय तंजावुर, तमिलनाडु | 23 मई 2001 |
| 5. | डॉ. शहाबुद्दीन नूरमोहम्मद पठान, कुलपति | राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय | 14 जुलाई 2005 |
| 6. | प्रो. (डॉ.) वी गोपाल रेड्डी, कुलपति | काकात्या विश्वविद्यालय, विद्यारण्यपुरी, वारंगल | 11 अक्टूबर 2004 |
| 7. | प्रो. राजेन्द्र गोविन्द हर्षे, कुलपति | इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीनेट हाऊस, इलाहाबाद | 13 अक्टूबर 2005 |
| 8. | प्रो. अशोक कुमार कालिया, कुलपति | संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 08 जून 2005 |

यु. के. धर
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना विभाग

सं. 464, दिनांक 28 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
सेना शिक्षा कोर
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार उमेश दिहिंणीया (जेसी-216187एल), 03 जनवरी 2006@
@ (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार अमर नाथ (जेसी-223740एल), 01 फरवरी 2006

सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-216189डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

सूबेदार गुरमेल सिंह घुमण (जेसी-214300डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

सूबेदार रघुनाथ मुकुट (जेसी-216213एफ), 01 मार्च 2006

सूबेदार देवेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-216214के), 01 मार्च 2006

सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जेसी-216999वाई), 02 मार्च 2006&

सूबेदार श्रीकृष्ण सिंह यादव (जेसी-216215एम), 01 मार्च 2006

सूबेदार विजय सिंह रावत (जेसी-216193वाई), 07 मार्च 2006&

& (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार शेर सिंह (जेसी-217877एफ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार अब्बास अहमद जैदी (जेसी-217878के), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार धरम प्रकाश (जेसी-223002एफ), 03 अप्रैल 2006#

सूबेदार कुलाई धर्मा राव (जेसी-217165वाई), 01 अप्रैल 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार भूप सिंह (जेसी-219016के), 01 मई 2006

सूबेदार तेज सिंह मनराल (जेसी-217883पी), 01 मई 2006

सूबेदार बाल मुकुन्द पाण्डेय (जेसी-217169पी), 01 मई 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-803024डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-803034ए), 08 जनवरी 2006@

@ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रभाकर राए (जेसी-803028एम), 09 मार्च 2006\$

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-803041डब्ल्यू), 09 मार्च 2006\$

\$ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-803057एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रवीन्द्र गोस्वामी (जेसी-803061के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार हृदय नारायण कुशवाहा (जेसी-803064एक्स), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार नन्द लाल अरोड़ा (जेसी-803069डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) वीर सिंह (जेसी-8030182एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार बिनोद बल्लभ (जेसी-803072डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार अजय कुमार सिंह (जेसी-803073वाई), 06 अप्रैल 2006&

नायब सूबेदार मधु सूदन ए (जेसी-803075के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जय विन्दर सिंह (जेसी-803080पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जेसी-803083एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार शक्ति पाल सिंह (जेसी-803084एल), 18 अप्रैल 2006&

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-803085एन), 05 अप्रैल 2006&

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-803086डब्ल्यू), 01 मई 2006&

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र (जेसी-803090वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार यादव (जेसी-803091एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-803094पी), 01 अप्रैल 2006

& (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-803096ए), 01 मई 2006

नायब सूबेदार पदमा दत्त (जेसी-803097एच), 01 मई 2006

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-803099एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार सिमांचल पाढ़ी (जेसी-803100एक्स), 01 मई 2006

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी (जेसी-803102एच), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जगत नारायण यादव (जेसी-803104एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार अजीत सिंह यादव (जेसी-803105डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब सूबेदार राज सिंह राड़ (जेसी-803109एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मगन लाल (सेनांक 9510007एन अब जे सी-803852एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार रविन्द्र नाथ प्रधान (सेनांक 9509499एल अब जे सी-803861एच), 23 मार्च 2006@

हवलदार अमरेश बिस्वास (सेनांक 9509512के अब जे सी-803862एल), 28 मार्च 2006@

हवलदार दिलबाग सिंह चहल (सेनांक 9509635डब्ल्यू अब जे सी-803863एन), 23 मार्च 2006@

हवलदार धर्मेंश कुमार (सेनांक 9509861एन अब जे सी-803864डब्ल्यू), 24 मार्च 2006@

हवलदार उदय कुमार शर्मा (सेनांक 9510006एल अब जे सी-803867के), 22 मार्च 2006@

हवलदार कृष्ण कुमार (सेनांक 9510028के अब जे सी-803873एक्स), 14 मार्च 2006@

हवलदार सालक राम (सेनांक 9510034एक्स अब जे सी-803874ए), 16 मार्च 2006@

हवलदार रविन्द्र सिंह (सेनांक 9510039डब्ल्यू अब जे सी-803876एल), 25 मार्च 2006@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश शर्मा (सेनांक 9510041एन अब जे सी-803878डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार सतीश कुमार (सेनांक 9510043वाई अब जे सी-803879वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार पुन्नुस वी जे (सेनांक 9510046एम अब जे सी-803882वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार राम किशोर शर्मा (सेनांक 9510047पी अब जे सी-803883एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार जय सिंह शेखावत (सेनांक 9510048एक्स अब जे सी-803884के), 03 अप्रैल 2006#

हवलदार राम अवध सिंह (सेनांक 9510050पी अब जे सी-803886पी), 01 अप्रैल 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सेनांक 9510053एच अब जे सी-803887एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रोशन सिंह (सेनांक 9510054एल अब जे सी-803888ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार श्याम प्रकाश (सेनांक 9510058एफ अब जे सी-803891ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार सुदर्शन कुमार (सेनांक 9510060वाई अब जे सी-803893एल), 01 अप्रैल 2006

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सेनांक 9509966एक्स अब जे सी-803829एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार अजय दत्त शुक्ला (सेनांक 9509982पी अब जे सी-803835एफ), 04 जनवरी 2006@

हवलदार निर्भय सिंह तोमर (सेनांक 9509987एन अब जे सी-803838पी), 01 जनवरी 2006

हवलदार भरत सिंह (सेनांक 9509990एन अब जे सी-803840एम), 02 जनवरी 2006@

हवलदार प्रदीप कुमार रॉय (सेनांक 9509998ए अब जे सी-803845एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार अवतार सिंह (सेनांक 9509999एच अब जे सी-803846एन), 12 जनवरी 2006@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार (सेनांक 9510002पी अब जे सी-803849एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार सुरेश कुमार (सेनांक 9510003एक्स अब जे सी-803850डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार विजय पाल सिंह (सेनांक 9510005एच अब जे सी-803851वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार मुरारी लाल शर्मा (सेनांक 9510008डब्ल्यू अब जे सी-803853के), 01 फरवरी 2006

हवलदार सुमेर सिंह (सेनांक 9510009वाई अब जे सी-803854एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सेनांक 9510012वाई अब जे सी-803855पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार सतिन्द्र सिंह (सेनांक 9510014के अब जे सी-803857ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार कोमेश कुमार (सेनांक 9510017एक्स अब जे सी-803858एच), 28 फरवरी 2006#

हवलदार/लिपिक जयदेव सिंह (सेनांक 9508808डब्ल्यू अब जे सी-803859एल), 01 फरवरी 2006

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कुन्दन भनोट (सेनांक 9510018ए अब जे सी-803868एम), 01 मार्च 2006

हवलदार रोय जोसेफ (सेनांक 9510020एक्स अब जे सी-803869पी), 06 मार्च 2006&

हवलदार हवा सिंह (सेनांक 9510026वाई अब जे सी-803870के), 01 मार्च 2006

हवलदार/लिपिक कल्लू सिंह (सेनांक 9518810एन अब जे सी-803872पी), 01 मार्च 2006

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

विजय कपूर
अवर सचिव

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 465, दिनांक 29 अगस्त 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार (एम टी)

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-662186पी), 01 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 28 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामा शंकर यादव (जेसी-662415पी), 07 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र कुमार (जेसी-662432पी), 29 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम धनेश्वर भगत (जेसी-662474एफ), 10 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार मदन प्रसाद राय (जेसी-662504एन), 26 दिसम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जितेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-662554वाई), 20 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-662614एच), 01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार महेश दत्त शर्मा (जेसी-662518डब्ल्यू), 30 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राकेश सिंह चौहान (जेसी-662584डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मास्टर लाल (जेसी-662647एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार विष्णु दत्त शर्मा (जेसी-662629एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार भारतेश्वर सिंह (जेसी-662649वाई), 04 फरवरी 2006

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीकान्त सिंह (जेसी-662602एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार कैलाश सिंह यादव (जेसी-662650एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार हरि कान्त द्विवेदी (जेसी-662651डब्ल्यू), 04 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-662675ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार परिसप्पा बास्तवाद (जेसी-662653एफ), 02 फरवरी 2006

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-662632एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-662633एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार छवि राम सिंह (जेसी-662681एन), 04 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-662635वाई), 04 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह जाट (जेसी-662668के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-662677एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (जेसी-662634डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-662654के), 11 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अखिलेश चन्द्र सुमन (जेसी-662254के), 01 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 28 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एम टी)

हवलदार बासुदेव देव नाथ (सं. 13883673एम अब जेसी-663982के), 17 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13886326वाई अब जेसी-663983एम),
11 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 26 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राधे श्याम सिंह (सं. 13890885ए अब जेसी-663984पी),
03 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 21 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार द्वारका प्रसाद (सं. 13889254एल अब जेसी-
663985डब्ल्यू), 14 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मकरन्द सिंह (सं. 13890929एच अब जेसी-663986के),
18 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सत्यवान गिरि (सं. 13891022एल अब जेसी-663987एच),
02 फरवरी 2006*

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13891124एफ अब जेसी-663988एल),
11 अप्रैल 2006*

हवलदार महावीर प्रसाद (सं. 13890968एल अब जेसी-663989एन),
16 मार्च 2006*

हवलदार नारायण दत्त (सं. 13891129ए अब जेसी-663990एच),
07 मार्च 2006*

हवलदार विजय कुमार शर्मा (सं. 13891714ए अब जेसी-
663991एल), 08 मार्च 2006*

हवलदार सन्दोज बहादुर कार्की (सं. 13891050एक्स अब
जेसी-663992एन), 04 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दया राम (सं. 13887277एन अब जेसी-663993डब्ल्यू),
04 अप्रैल 2006*

हवलदार शारदा प्रसाद (सं. 13890934एक्स अब
जेसी-663994वाई), 28 मार्च 2006*

हवलदार सुभाष सिंह (सं. 13887943एन अब जेसी-663995एफ),
12 अप्रैल 2006*

हवलदार श्रवन सिंह (सं. 13886205एक्स अब जेसी-663996के),
29 मार्च 2006*

हवलदार हरि शंकर (सं. 13894160एक्स अब जेसी-663997एन),
14 मार्च 2006*

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 13887981के अब जेसी-663998डब्ल्यू),
04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्यारे लाल (सं. 13858162एच अब जेसी-663999वाई),
01 अप्रैल 2006*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13894173पी अब जेसी-664000डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006*

हवलदार रमेश सिंह (सं. 13887887ए अब जेसी-664001डब्ल्यू),
04 मई 2006*

हवलदार श्री शत्रुघन प्रसाद तिवारी (सं. 13891763एच अब जेसी-
664002वाई), 24 अप्रैल 2006*

हवलदार राज कुमार प्रसाद (सं. 13891767वाई अब जेसी-
664003एफ), 20 अप्रैल 2006*

हवलदार अरविन्द शाह (सं. 13891797डब्ल्यू अब जेसी-664004के),
27 अप्रैल 2006*

हवलदार अक्षय कुमार मलिक (सं. 13894038एफ अब जेसी-
664005एम), 26 अप्रैल 2006*

हवलदार रमा कान्त राय (सं. 13891832एन अब जेसी-664006पी),
21 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल तलवार (सं. 13891674के अब जेसी-664007एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार ओमबीर सिंह (सं. 13889669ए अब जेसी-663935एम),
08 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार देश राज सिंह (सं. 13890930एफ अब जेसी-663936पी),
20 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13885738एन अब जेसी-663937एक्स),
16 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 24 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोकुल सिंह (सं. 13889905डब्ल्यू अब जेसी-663938ए),
20 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 24 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निशी कान्त सिन्हा (सं. 13885501डब्ल्यू अब जेसी-663939एच), 06 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार झालेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 13883352पी अब जेसी-663940एक्स), 06 मार्च 2006 *

हवलदार राम दुलारे (सं. 13890213एन अब जेसी-663941ए), 06 मार्च 2006 *

हवलदार कमल सिंह (सं. 13891146ए अब जेसी-663942एच), 20 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार साजन नियाजहा एम के साहेब (सं. 13889204ए अब जेसी-663943एल), 08 मार्च 2006 *

हवलदार राम करन राम (सं. 13894019डब्ल्यू अब जेसी-663944एन), 18 मार्च 2006 *

हवलदार जगर नाथ सिंह कुशवाहा (सं. 13891228एच अब जेसी-663945डब्ल्यू), 15 मार्च 2006 *

हवलदार विष्णु दत्त (सं. 13887346वाई अब जेसी-663946वाई), 14 मार्च 2006 *

हवलदार सिवदासन के (सं. 13889744वाई अब जेसी-663948के), 02 मार्च 2006 *

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 13891101ए अब जेसी-663949एम), 14 मार्च 2006 *

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 13891179एल अब जेसी-663950एफ), 06 मार्च 2006 *

हवलदार राम विनोद कुमार (सं. 13886992के अब जेसी-663951के), 28 फरवरी 2006 *

हवलदार जसमल सिंह (सं. 13891154वाई अब जेसी-663952एम), 11 मार्च 2006 *

हवलदार गजेन्द्र साहनी (सं. 13891120एल अब जेसी-663953पी), 14 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार माधव चन्द्र मंडल (सं. 13891712पी अब जेसी-663954एक्स), 01 मार्च 2006 *

हवलदार सत्यवीर धोबी (सं. 13887409डब्ल्यू अब जेसी-663955ए), 03 मार्च 2006 *

हवलदार तेजवीर शर्मा (सं. 13890342एच अब जेसी-663956ए), 07 मार्च 2006 *

हवलदार अशोक कुमार झा (सं. 13890129एन अब जेसी-663957एल), 21 मार्च 2006 *

हवलदार एस चेल्ला दुरई (सं. 13891219एफ अब जेसी-663958एन), 20 मार्च 2006 *

हवलदार लक्ष्मी शंकर (सं. 13890129ए अब जेसी-663959डब्ल्यू), 30 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13894154के अब जेसी-663960एल), 01 मार्च 2006 *

हवलदार भैरव चन्द्र पान्डेय (सं. 13887961डब्ल्यू अब जेसी-663961एन), 01 मार्च 2006 *

हवलदार सुदामा राम (सं. 13894086एफ अब जेसी-663962डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006 *

हवलदार लक्ष्मी नारायण सिंह (सं. 13887477के अब जेसी-664015एफ), 22 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार भोला ओरन (सं. 13889249ए अब जेसी-664016के), 11 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार चैतन्य जेना (सं. 13890448ए अब जेसी-664017एम), 12 मई 2006 *

हवलदार पुर्ण चन्द्र बोरो (सं. 13889648के अब जेसी-664018पी), 12 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 27 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम कुमार सिंह (सं. 13891802डब्ल्यू अब जेसी-664019एक्स), 08 मई 2006 *

हवलदार रमेश चन्द्र यादव (सं. 13891809ए अब जेसी-664020एम), 16 अप्रैल 2006 *

हवलदार शिव स्नेही पी डी गुप्ता (सं. 13894041एफ अब जेसी-664021पी), 17 मई 2006 *

हवलदार सुरेन्द्र कुमार दुबे (सं. 13891848वाई अब जेसी-664022एक्स), 12 मई 2006 *

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 13891855पी अब जेसी-664023ए), 11 मई 2006 *

हवलदार अभिलाल झाझरिया (सं. 13894383पी अब जेसी-664024एच), 18 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 13894392डब्ल्यू अब जेसी-664025एल),
01 अप्रैल 2006 *

हवलदार शिव कान्त (सं. 13890209एल अब जेसी-664026एन),
11 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 19 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद मुस्ताकिम खान (सं. 13894181एन अब
जेसी-664027 डब्ल्यू), 01 मई 2006 *

हवलदार गोबिन्द कुमार बिस्वास (सं. 13894231एन अब
जेसी-664028वाई), 10 मई 2006 *

हवलदार रामबीर सिंह (सं. 13891964एफ अब जेसी-664029एफ),
17 मई 2006 *

हवलदार वीरेन्द्र पाल (सं. 13894302के अब जेसी-664030डब्ल्यू),
22 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बी चित्वा नरासिमहलू (सं. 14366810एक्स अब जेसी-
269040डब्ल्यू), 17 फरवरी 2006/19 अगस्त 2005 *

हवलदार घोड के सुगरीबो भगवान राव (सं. 14385975एल अब जेसी-
269041वाई), 14 मार्च/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार सूर्यकान्त मिश्रा (सं. 14476375डब्ल्यू अब जेसी-
269042एफ), 17 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार ईश्वर चन्द्र (सं. 14365511एम अब जेसी-269043के),
14 मार्च 2006/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार रवेम राम (सं. 14467231एच अब जेसी-269044एम),
25 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार राम लाल (सं. 14360948डब्ल्यू अब जेसी-269045पी),
24 दिसम्बर 2005/30 नवम्बर 2005 *

हवलदार देव प्रसाद सिंह (सं. 14368949एन अब जेसी-
269046एक्स), 21 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार कन्वर बहादुर सिंह (सं. 14480882एफ अब जेसी-
269047ए), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार भारत कुमार तमैंग (सं. 14468874डब्ल्यू अब जेसी-
269048एच), 25 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार रतन सिंह (सं. 14376144एल अब जेसी-269049एल),
21 मई 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14487288एच अब जेसी-269050ए),
24 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार डी सुब्रमनियन (सं. 14380293डब्ल्यू अब जेसी-
269051एच), 22 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार तारा चन्द (सं. 15105143एल अब जेसी-269052एल),
02 जून 2006/01 फरवरी 2006 *

आर एच एम मुहमदअली एस (सं. 14365343एफ अब जेसी-
269053एन), 16 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार टी चन्द्र शेकरा राव (सं. 14495746एच अब जेसी-
269054डब्ल्यू), 16 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

बी एच एम पी एम उन्नीकृष्णन (सं. 14492503एम अब जेसी-
269055वाई), 16 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सं. 466, तारीख 28 अगस्त 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) कमला प्रसाद (जेसी-418578वाई),
13 जनवरी 2006

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहनन पिल्ले (जेसी-216441के), 15 मार्च 2006 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

सूबेदार सुरेन्द्र पाल सिंह (जेसी-418576एन), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देवी दास (जेसी-419634वाई), 18 अक्टूबर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
08 सितम्बर 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लुईस जोसेफ (जेसी-419192एल), 05 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-419239एल), 17 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14
फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-419612ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उथमान नायर के पी (सं. 14905744एफ अब जेसी-420497एक्स), 20 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र शेखर कुमार चौधरी (सं. 14918329वाई अब जेसी-420498ए), 07 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुजीत कुमार पाल (सं. 14906823एम अब जेसी-420499एच), 30 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्रकान्त भार्गव (सं. 14908054एच अब जेसी-420500एम), 02 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार खुशी लाल (सं. 14905294पी अब जेसी-420501पी), 25 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार रमेश सिंह (सं. 14908296एल अब जेसी-420502एक्स), 25 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार हंस राज स्वामी (सं. 14907820एफ अब जेसी-420503ए), 06 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 14910465ए अब जेसी-420504एच), 08 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 14908317डब्ल्यू अब जेसी-420505एल), 01 मार्च 2006

हवलदार ज्ञान सिंह बिष्ट (सं. 14908169डब्ल्यू अब जेसी-420506एन), 11 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार अजीत सिंह चौहान (सं. 14907157पी अब जेसी-420507डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार पुरन चन्द यादव (सं. 14904907एक्स अब जेसी-420508वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार कुलदीप (सं. 14907408एन अब जेसी-420509एफ), 17 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुशील कुमार मधु कुमार वैध (सं. 14905568पी अब जेसी-420510डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार के सौन्दराजी (सं. 14909089एल अब जेसी-420511वाई), 28 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार आदेश कुमार सिंह (सं. 14909000एन अब जेसी-420512एफ), 19 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार शत्रुघ्न साव (सं. 14902636एम अब जेसी-420513के), 24 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार राम सिंह (सं. 14906782के अब जेसी-420514एम), 23 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार विजय सिंह (सं. 14906071के अब जेसी-420515पी), 01 मई 2006

हवलदार अमर सिंह (सं. 14907201एन अब जेसी-420516एक्स), 01 मई 2006

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 14906522वाई अब जेसी-420517ए), 01 मई 2006

हवलदार विजय बहादुर सिंह (सं. 2974846वाई अब जेसी-420518एच), 14 जून 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जाती है)

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार के रैंक में दफादार छाजू राम महला (नं. 13700382एफ अब जेसी-235044ए), 21 अप्रैल 2006

कवचित कोर

स्थायी रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार मदन लाल (जेसी-236641एफ), 14 मार्च 2005*

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

रिसालदार पाटी कानता दास (जेसी-237245वाई), 28 मार्च 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

रिसालदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-237467एम), 29 अप्रैल 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

रिसालदार पोखरमल दयाल (जेसी-238277एम), 16 अप्रैल 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

रिसालदार सनथ कुमार (जेसी-238603के), 07 नवम्बर 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार अमर सिंह राघवा (जेसी-236972एच), 01 नवम्बर 2005

रिसालदार सरदार मोहम्मद मुज्जफर रहमान (जेसी-237070ए), 10 अक्टूबर 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार राम सिंह शेखावत (जेसी-237399के), 02 नवम्बर 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार सत्यवीर सिंह झंझरिया (जेसी-236735वाई), 01 नवम्बर 2005

रिसालदार बीरबल सिंह (जेसी-237905के), 17 नवम्बर 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार परशोत्तम लाल (जेसी-237750ए), 01 दिसम्बर 2005

रिसालदार बलविन्दर सिंह (जेसी-238472के), 09 जनवरी 2006 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार मुक्करब खान (जेसी-236015एक्स), 01 फरवरी 2006

रिसालदार शकील अखतर (जेसी-238311एफ), 09 फरवरी 2006

रिसालदार राज नन्दन रे (जेसी-239103वाई), 04 अप्रैल 2006 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

रिसालदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-237889एक्स), 01 मार्च 2006

सं. 467, दिनांक 29 अगस्त 2006.—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-174911ए), 01 मार्च 2006

सूबेदार अमीर जी (जेसी-179320एच), 01 मार्च 2006

सूबेदार कैलाश चन्द्रा रौत (जेसी-184441एन), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार किशन सिंह तनवर (जेसी-173761एच), 01 मई 2006

सूबेदार गुँज बहादुर राइ (जेसी-108812एक्स), 01 मई 2006

सूबेदार परमा राम डोगरा (जेसी-178598एक्स), 01 मई 2006

सूबेदार अवदेश सिंह (जेसी-154614एल), 01 मई 2006

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार भागु राम (जेसी-840823के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार बजरंग लाल (जेसी-448486एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार हरजान सिंह सुहाग (जेसी-237347एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार शंकर सिंह खेतवाल (जेसी-190792वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जोगिन्दर पाण्डेय (जेसी-402106वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-840861ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जगदीश चन्दर चहर (जेसी-181762ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार संतोख सिंह (जेसी-840888एक्स), 01 मई 2006

नायब सूबेदार सचिदानन्दन (जेसी-840895एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार के कृष्णन (जेसी-840904के), 01 मई 2006

नायब सूबेदार गिरधारी राम (जेसी-840908ए), 01 मई 2006

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार वेदमुथन एन्टोनी (जेसी-840956ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार ससी कुमार एन (जेसी-840990ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार दीना नाथ गुप्ता (जेसी-841035एम), 01 अप्रैल 2006

जोश थोमस
अवर सचिव

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

सं. 468, तारीख 28 अगस्त 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

सेना पुलिस कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहित चन्द्र कर्माकर (जेसी-818324पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार वी लक्ष्मण पेरुमल (जेसी-818134एच), 01 फरवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम करन (जेसी-818804वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार श्याम बहादुर यादव (जेसी-818805एफ), 16 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार धरनीधर भुयन (जेसी-818809एक्स), 02 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-818810एम), 02 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-818812एक्स), 07 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार हरि शंकर भारती (जेसी-818813ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-818814एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार रामा कृष्णन के (जेसी-818815एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मो. सौकत अली (जेसी-818817डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजिन्द्र यादव (जेसी-818818वाई), 03 मार्च 2006@

नायब सूबेदार एस सेतु (जेसी-818819एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार कानु मलाकर (जेसी-818820डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के के कोमलन पिल्लै (जेसी-818821वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार वियज कुमार राम (जेसी-818822एफ), 01 मार्च 2006

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार हरे कशन देशवाल (जेसी-818550एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अलबेल सिंह (सं. 7773717एक्स अब जेसी-819102एम), 12 फरवरी 2006\$

हवलदार दामोदर सिंह (सं. 7773853एन अब जेसी-819103पी), 01 जनवरी 2006

हवलदार हरिनारायण प्रसाद (सं. 7773731के अब जेसी-819104एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार हाकिम सिंह (सं. 7773821एल अब जेसी-819105ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार भरत मल यादव (सं. 7773960पी अब जेसी-819106एच), 02 जनवरी 2006*

हवलदार प्रबिन चन्द्र दोलाई (सं. 7773885डब्ल्यू अब जेसी-819109डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार रज्जन लाल (सं. 7774125ए अब जेसी-819110एल), 08 फरवरी 2006@

हवलदार सत पाल (सं. 7773919वाई अब जेसी-819111एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार गोकुल चन्द्र तालुकदार (सं. 7773920एन अब जेसी-819112डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार मोहन प्रसाद सिंह (सं. 7773665एम अब जेसी-819113वाई), 01 मार्च 2006

हवलदार मो. तैयब अली (सं. 7773759के अब जेसी-819114एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार विश्व नाथ तिवारी (सं. 7773947एल अब जेसी-819115के), 01 मार्च 2006

हवलदार महरवान सिंह यादव (सं. 7773954एफ अब जेसी-819116एम), 07 मार्च 2006#

हवलदार शिव राज सिंह (सं. 7773955के अब जेसी-819117पी), 01 मार्च 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 7773969के अब जेसी-819118एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार सच्चा नंद सिंह (सं. 7773684एक्स अब जेसी-819119ए), 07 मार्च 2006#

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार श्याम सिंह (सं. 7773874के अब जेसी-819107एल), 13 जनवरी 2006*

हवलदार विश्वा भिन्न सिंह (सं. 7773832एक्स अब जेसी-819108एन), 01 फरवरी 2006

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दि राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार के रूप में

सूबेदार शिश राम गुर्जर (जेसी-478881के), 01 मई 2005

सूबेदार राम शरण सिंह (जेसी-479285के), 01 जून 2005

सूबेदार दुस्यन्त लाल (जेसी-479232एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार भारत सिंह (जेसी-478998एच), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-479067एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-479373ए), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार सतेन्द्र कुमार (जेसी-479019एल), 02 नवम्बर 2005

सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-479240के), 06 दिसम्बर 2005

सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-479247एन), 01 जनवरी 2006

सूबेदार राम पाल (जेसी-479263एल), 18 जनवरी 2006

सूबेदार चतर सिंह राजपूत (जेसी-479243एक्स), 01 फरवरी 2006

सूबेदार धर्म पाल यादव (जेसी-479163ए), 09 मार्च 2006

सूबेदार माम चन्द सिंह (जेसी-479244ए), 01 मई 2006

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-498052एक्स), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-498214एक्स), 01 जून 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-499048एफ), 16 जनवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-499181के), 03 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार धीरा सिंह (जेसी-499163एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-499221ए), 30 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-499296एक्स), 01 मई 2006

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-498313ए), 01 फरवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499243वाई), 26 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार सेर सिंह (जेसी-499107एच), 25 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-499193वाई), 22 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-499207एन), 17 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार सरदीप सिंह (जेसी-499247पी), 17 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क प्रताप सिंह (जेसी-499189डब्ल्यू), 01 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सोमन्ना के जी (जेसी-439136एन), 01 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार साजन बरगीस वी (जेसी-439118एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जोस पी जे (जेसी-439328एल), 11 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सि लोकनाद रेड्डि (जेसी-439278एल), 11 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार गंगाधर कन्डागल (जेसी-439335एफ), 15 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार मदिवाला पूजर, एस एम (जेसी-439083एक्स),
21 अप्रैल 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार एन षण्मुगम (जेसी-439285एफ), 19 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सिद्धार्थ कुमार (सं. 3985557ए अब जेसी-520349एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम लाल (सं. 3985533डब्ल्यू अब जेसी-520350डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार स्वामी राम (सं. 3985117एम अब जेसी-520351वाई),
30 अक्टूबर 2005

हवलदार राकेश भारद्वाज (सं. 3990089पी अब जेसी-520352एफ),
30 अक्टूबर 2005

हवलदार प्रेम लाल (सं. 3986027एक्स अब जेसी-520353के),
01 नवम्बर 2005

हवलदार होशियार सिंह (सं. 3986163एन अब जेसी-520354एम),
01 नवम्बर 2005

हवलदार अनील कुमार (सं. 3986654के अब जेसी-520355पी),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3985913पी अब जेसी-520356एक्स),
01 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2005 से)

हवलदार जोगिन्द्र पाल (सं. 3986754पी अब जेसी-520357ए),
09 जनवरी 2006

हवलदार अमर सिंह (सं. 3986792एल अब जेसी-520358एच),
24 जनवरी 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3986702वाई अब जेसी-520359एल),
01 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से)

हवलदार राकेश चन्द (सं. 3391168वाई अब जेसी-520360ए), 01
मार्च 2006

हवलदार विजय कुमार (सं. 4003754वाई अब जेसी-520361एच),
20 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक कृष्ण लाल (सं. 3984762पी अब जेसी-
520362एल), 01 अप्रैल 2006

हवलदार लिपिक मस्तान सिंह (सं. 3984851एन अब जेसी-
520363एन), 01 अप्रैल 2006

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पूरन सिंह (सं. 2883661के अब जेसी-469872एफ),
10 फरवरी 2006/19 जुलाई 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2883234एन अब जेसी-469873के),
14 मार्च 2006/01 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 2879049एच अब जेसी-469874एम),
14 मार्च 2006/16 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शेर सिंह (सं. 2886762एच अब जेसी-469875पी),
18 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राधे श्याम (सं. 2886404एक्स अब जेसी-469876एक्स),
13 अप्रैल 2006/06 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 4462900वाई अब जेसी-509372पी),
21 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सरदूल सिंह (सं. 4463385के अब जेसी-509373एक्स),
24 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तरलोक सिंह (सं. 4466967पी अब जेसी-509374ए), 04
मई 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार हरि सिंह (सं. 4467194एम अब जेसी-509375एच),
01 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 4467956पी अब जेसी-509376एल),
08 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 4466664ए अब जेसी-509377एन),
19 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2006 से दी जायेगी)

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तारा सिंह (सं. 3386657ए अब जेसी-499719ए), 16 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2006)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 3386575एक्स अब जेसी-499720पी),
22 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2006)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 3387595एक्स अब जेसी-499721एक्स),
17 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2006)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 3387637वाई अब जेसी-499722ए),
01 मई 2006

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क जयवीर सिंह (सं. 3385604पी अब जेसी-499723एच), 30 मई 2006

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2006)

हवलदार क्लर्क शिव कुमार (सं. 15354375एक्स अब जेसी-499724एल), 15 जून 2006

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006)

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार लालरितपुरई (सं. 4362436एल अब जेसी-549061के),
02 मार्च 2005/01 दिसम्बर 2004

हवलदार बिष्णु बहादुर गिरि (सं. 4356715ए अब जेसी-549129ए),
24 अक्टूबर 2005/01 जून 2005

हवलदार विजय गुरुंग (सं. 4355042के अब जेसी-549131एक्स),
27 सितम्बर 2005/01 मार्च 2005

हवलदार सुरेन बोरा (सं. 4355552एल अब जेसी-549132ए),
24 अक्टूबर 2005/01 जून 2005

हवलदार मनोहारी दास (सं. 4355145एच अब जेसी-549128एक्स),
17 अक्टूबर 2005/01 अप्रैल 2005

हवलदार पुष्पालाल भयराइ (सं. 4357509एच अब जेसी-549133एच),
10 नवम्बर 2005/01 अप्रैल 2005

हवलदार बी एस राक्सनअनल (सं. 4355864एफ अब जेसी-549134एल), 17 अक्टूबर 2005/27 अप्रैल 2005

हवलदार खारगेश्वर चेतिया (सं. 4355953ए अब जेसी-549135एन),
17 अक्टूबर 2005/01 मई 2005

हवलदार अजीत कुमार सिंघा (सं. 4358208एल अब जेसी-549136डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2005/01 मई 2005

हवलदार ए नंदा मोहन सिंघा (सं. 4356273एम अब जेसी-549137वाई), 29 अक्टूबर 2005/01 जून 2005

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4358185पी अब जेसी-549138एफ),
21 नवम्बर 2005/01 जून 2005

हवलदार शेर बहादुर छेत्री (सं. 4356468एक्स अब जेसी-549145एक्स), 05 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005

हवलदार बकुल चंद्रा सैकिया (सं. 4355577एक्स अब जेसी-549146ए), 03 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार निंगमारीओ थांगखुल (सं. 4357180के अब जेसी-549147एच), 03 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार गोदाधर बसुमतरी (सं. 4360675एफ अब जेसी-549148एल), 14 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार ख्वाईसम ईनावी सिंह (सं. 4361254एल अब जेसी-549149एन), 01 दिसम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार धन सिंह मारविन (सं. 4358912एफ अब जेसी-549150एच),
08 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार अधोर सिंहा (सं. 4358975के अब जेसी-549151एल),
12 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005

हवलदार विश्वम्भर सिंहा (सं. 13614920ए अब जेसी-549152एन),
17 फरवरी 2006/28 अगस्त 2005

हवलदार सोय्बम लक्सेना सिंह (सं. 4355435ए अब जेसी-549153डब्ल्यू), 22 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005

हवलदार लविंगसन अनल (सं. 4359723के अब जेसी-549154वाई),
05 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005

हवलदार अतुल बिकास चकमा (सं. 4356631एम अब जेसी-549155एफ), 17 अक्तूबर 2005/01 सितम्बर 2005

हवलदार वानलालथियंग (सं. 4355187पी अब जेसी-549156के), 26 जनवरी 2006/01 सितम्बर 2005

हवलदार टी मांगवाय गांगटे (सं. 4355125पी अब जेसी-549157एम), 07 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005

हवलदार जीत बहादुर राई (सं. 4358372एन अब जेसी-549158पी), 21 अक्तूबर 2005/01 सितम्बर 2005

हवलदार ओ कुंजा बाबु सिंघा (सं. 4357636एक्स अब जेसी-549159एक्स), 16 दिसम्बर 2005/01 अक्तूबर 2005

हवलदार शेर बहादुर छेत्री (सं. 4354993पी अब जेसी-549160एम), 01 दिसम्बर 2005/24 अक्तूबर 2005

हवलदार जेना एच गांगटे (सं. 4358025पी अब जेसी-549161पी), 01 दिसम्बर 2005/24 अक्तूबर 2005

हवलदार सुरेंद्रा कुमार सिंघा (सं. 4354055पी अब जेसी-549162एक्स), 23 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005

हवलदार के एच राजन सिंघा (सं. 4355630एक्स अब जेसी-549163ए), 12 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005

हवलदार होलखोसाई हॉकिप (सं. 4356531एफ अब जेसी-549164एच), 28 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005

हवलदार गोमेंद्रा राजबोंगशि (सं. 4356401वाई अब जेसी-549165एल), 31 जनवरी 2006/27 नवम्बर 2005

हवलदार तुआंग तुंग नुंग जङ्क (सं. 4355180एल अब जेसी-549166एन), 30 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005

हवलदार दमबारुधर कलिता (सं. 4357479डब्ल्यू अब जेसी-549167डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005

हवलदार आनंद देव बर्मा (सं. 4356655डब्ल्यू अब जेसी-549168वाई), 21 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005

हवलदार धन बहादुर थापा (सं. 4358085के अब जेसी-549169एफ), 03 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005

हवलदार जॉय चंद्रा सिंघा (सं. 4355405एच अब जेसी-549179एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार रंजु कुमार सिंघा (सं. 13614722पी अब जेसी-549180ए), 19 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार रेंगखुप तियांते (सं. 4362929एम अब जेसी-549181एच), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार हरेश्वर डेका (सं. 4356201एल अब जेसी-549183एन), 17 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लेत्जाखम (सं. 4356239एम अब जेसी-549184डब्ल्यू), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार पुतुल सैकिया (सं. 4356243पी अब जेसी-549185वाई), 17 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार संता बहादुर थापा (सं. 4426584ए अब जेसी-549186एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार उत्तम कुमार बर्मन (सं. 4356739के अब जेसी-549187के), 01 जनवरी 2006

हवलदार विजय शर्मा (सं. 4356744पी अब जेसी-549188एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार पुना राम हजारिका (सं. 4356777ए अब जेसी-549189पी), 12 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार के एस वानलालछुंगा (सं. 4357009ए अब जेसी-549190के), 01 जनवरी 2006

हवलदार एल हीरालाल सिंह (सं. 4355786पी अब जेसी-549191एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार कुमार धन सिंघा (सं. 4356896डब्ल्यू अब जेसी-549192पी), 04 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार एच एल जाहु अनल (सं. 4355901के अब जेसी-549193एक्स), 21 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार यामखोपाउ (सं. 4355303एन अब जेसी-549194ए), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार सुरेन कुमार सुब्बा (सं. 4355613एक्स अब जेसी-549195एच), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार विजय लामा (सं. 4355778डब्ल्यू अब जेसी-549197एन), 07 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार त्लांगतिंहरंगा पोइ (सं. 4355734वाई अब जेसी-549198डब्ल्यू), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार एस के कोतोइ लामकांग (सं. 4356118एल अब जेसी-549199वाई), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार मालसोमा (सं. 4356002पी अब जेसी-549200एच), 03 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार रोंगसन छुजांग (सं. 4356129एक्स अब जेसी-549201एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार उसित चंद्र पतर (सं. 4357768एल अब जेसी-549202एन), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक इंद्र सिंह (सं. 4357841एक्स अब जेसी-549170डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक देस राज (सं. 4357848एच अब जेसी-549171वाई), 28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक रमेश चंद (सं. 4357850ए अब जेसी-549172एफ), 06 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक एल दौंगजा तुअंग नैगते (सं. 4354978ए अब जेसी-549173के), 28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक नाथन सिंह (सं. 4357852एल अब जेसी-549174एम), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक रनबीर सिंह (सं. 4357853एन अब जेसी-549175पी), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक कैलाश नाथ द्विवेदी (सं. 4358219एक्स अब जेसी-549176एक्स), 09 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक सुदर्शन सिंह चौहान (सं. 4357883डब्ल्यू अब जेसी-549177ए), 18 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006

धर्मगुरु नायब सूबेदार के पद में

रंगरूट धर्मगुरु (पादरी) के टी अंद्रिया अनल (सं. 548791एच अब जेसी-548791एच), 28 सितम्बर 2002

रंगरूट धर्मगुरु (पंडित) राज गोलाब तिवारी (सं. 549122डब्ल्यू अब जेसी-549122डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वनसोडे अनिल इकनाथ (सं. 4558354डब्ल्यू अब जेसी-569783एक्स), 23 अप्रैल 2006@

@(बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006)

हवलदार जगसेन सिंह (सं. 4559111डब्ल्यू अब जेसी-569784ए), 04 अप्रैल 2006@@

@@(बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 08 मार्च 2006)

हवलदार तेजभान यादव (सं. 4559285डब्ल्यू अब जेसी-569785एच), 08 मई 2006@@@

@@@ (बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 08 मार्च 2006)

हवलदार श्री कृष्णा यादव (सं. 4562628एम अब जेसी-569786एल), 08 मई 2006#

#(बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 05 अप्रैल 2006)

हवलदार भोगाले राम लाल श्रीराम (सं. 4559661वाई अब जेसी-569787एन), 03 मई 2006##

##(बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 13 अप्रैल 2006)

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 4557402एक्स अब जेसी-569788डब्ल्यू), 06 मई 2006###

###(बिना वेतन के जेष्ठता दिनांक 01 मई 2006)

हवलदार बनी सिंह (सं. 4556283ए अब जेसी-569789वाई), 01 मई 2006

पेराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13618963एम अब जेसी-413065ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार भीम सेन (सं. 3986909वाई अब जेसी-413066एच), 23 अप्रैल 2006

हवलदार राकेश चन्द तिवारी (सं. 13615521एच अब जेसी-413067एल), 07 जून 2006**

**(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006)

हवलदार सुनील कुमार मल (सं. 13616791के अब जेसी-413068एन), 17 मई 2006**

**(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2006)

हवलदार राकेश सिंह भंडारी (सं. 13617791डब्ल्यू अब जेसी-413069डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार गोबिन बोर गोहेन (सं. 13617974एम अब जेसी-413070एल), 17 मई 2006**

**(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार (लिपिक)

हवलदार/लिपिक सुमेर सिंह (सं. 13615789एल अब जेसी-413062एम), 01 जून 2006

हवलदार/लिपिक अशोक कुमार शर्मा (सं. 13615925एल अब जेसी-413063पी), 01 जून 2006

हवलदार/लिपिक शंकर राम पुनिया (सं. 13616670एच अब जेसी-413064एक्स), 01 जून 2006

1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्रा बहादुर गुरूंग (सं. 5043739एच अब जेसी-602660एन), 20 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार जीत बहादुर थापा (सं. 5043579एन अब जेसी-602661डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार वीर बहादुर गुरूंग (सं. 5043551एन अब जेसी-602662वाई), 19 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार नारायण थापा (सं. 5043620वाई अब जेसी-602663एफ), 25 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार लक्ष्मण थापा (सं. 5043490एफ अब जेसी-602664के),
11 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार पूर्णा बहादुर बुढाथोकी (सं. 5043492एम अब जेसी-602665एम), 11 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार/लिपिक चरण सिंह (सं. 5043058ए अब जेसी-602666पी),
02 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

हवलदार/लिपिक धर्म पाल (सं. 5043060एक्स अब जेसी-602667एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार संजय कुमार गुरूंग (सं. 5043588पी अब जेसी-602668ए),
13 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार टेक बहादुर राणा (सं. 5043356डब्ल्यू अब जेसी-602669एच), 31 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 29 नवम्बर 2005)

हवलदार मेघ बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5043757एल अब जेसी-602670एक्स),
06 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

कम्पनी हवलदार मेजर राज कुमार थापा (सं. 5345914के अब जेसी-602671ए), 18 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

कम्पनी हवलदार मेजर दीपक कुमार थापा (सं. 5043653के अब जेसी-602672एच), 18 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

कम्पनी हवलदार मेजर लाल बहादुर पुन (सं. 5043521डब्ल्यू अब जेसी-602673एल), 15 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

कम्पनी क्वाटर मास्टर/हवलदार भागी मान गुरूंग (सं. 5043650डब्ल्यू अब जेसी-602674एन), 06 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2006)

कम्पनी हवलदार मेजर हीरा बहादुर थापा (सं. 5043639एक्स अब जेसी-602675डब्ल्यू), 06 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2006)

हवलदार धन प्रसाद गुरूंग (सं. 5043788एल अब जेसी-602676वाई),
10 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2006)

हवलदार रन बहादुर थापा (सं. 5043309वाई अब जेसी-602677एफ),
20 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

कम्पनी हवलदार मेजर टेकन सिंह गुरूंग (सं. 5043711एच अब जेसी-602678के), 05 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार कृष्णा बहादुर थापा (सं. 5043506पी अब जेसी-602679एम),
01 फरवरी 2006

हवलदार रेशम बहादुर थापा (सं. 5043716एफ अब जेसी-602680एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार गगन सिंह थापा मगर (सं. 5043574पी अब जेसी-602681के),
01 फरवरी 2006

कम्पनी क्वाटर मास्टर हवलदार टप बहादुर राणा (सं. 5043575एक्स अब जेसी-602682एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार ज्ञान बहादुर राणा (सं. 5043731डब्ल्यू अब जेसी-602683पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार मेक बहादुर थापा (सं. 5043997एच अब जेसी-602684एक्स), 10 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार चक्रा बहादुर राणा (सं. 5043642के अब जेसी-602685ए),
27 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2006)

हवलदार तोल प्रसाद राणा (सं. 5043514ए अब जेसी-602686एच),
27 मार्च 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 09 फरवरी 2006)

हवलदार बुद्धी बहादुर दरलामी (सं. 5043843डब्ल्यू अब जेसी-602687एल), 01 अप्रैल 2006

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टी विष्णू वर्धन रेड्डी (सं. 2592753वाई अब जेसी-439693एम), 25 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रेजि सी (सं. 3989636एम अब जेसी-439698एल),
16 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार वीरभद्र गौडा पाटिल (सं. 2590799एच अब जेसी-439701ए), 10 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 09 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एस मनोहरन (सं. 2587528ए अब जेसी-439704एन), 04 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 15 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्रन के एम (सं. 2589828ए अब जेसी-439702एच), 10 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार देवरेष एल होटेनावर (सं. 2590168एअब जेसी-439705डब्ल्यू), 06 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरियता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार जी.डी. के रैंक में

हवलदार जवाहर लाल राम (सं. 4262508पी अब जेसी-559606के), 16 मार्च 2006/01 जून 2005 (सांकेतिक ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में सांकेतिक ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार ब्रजेश दत्त पाठक (सं. 4263440एल अब जेसी-559607एम), 15 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार तेज नारायण महतो (सं. 4263958एक्स अब जेसी-559608पी), 17 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जॉनसन गुना गुरिया (सं. 4266956वाई अब जेसी-559609एक्स), 27 मार्च 2006/20 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बिरबल हैबुरु (सं. 4272047के अब जेसी-559610एम), 10 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर अमृत तिकी (सं. 4263009एम अब जेसी-559611पी), 11 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर लक्ष्मण मुर्मू (सं. 4263356एल अब जेसी-559612एक्स), 05 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार कामाक्ष्या प्रसाद मोहन्ती (सं. 4262680डब्ल्यू अब जेसी-559613ए), 08 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार यूके राजेन्द्र जशवन्त सिंह (सं. 4269285एल अब जेसी-559614एच), 11 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश आर्या (सं. 4264024एन अब जेसी-559515एल), 05 मार्च 2006/02 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 02 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार रिकाडा कोंडागोरी (सं. 4263022डब्ल्यू अब जेसी-559616एन), 05 मार्च 2006/08 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार राज कुमार ठकुर (सं. 4265736एच अब जेसी-559617डब्ल्यू), 11 मार्च 2006/11 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 11 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर शिवजी राय (सं. 4245777के अब जेसी-559618वाई), 13 मार्च 2006/24 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 24 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर चैना राम (सं. 4264566एक्स अब जेसी-559619एफ), 22 फरवरी 2006/25 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 25 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार हरेश्वर महतो (सं. 4262611ए अब जेसी-559620डब्ल्यू), 04 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार आमोद कुमार (सं. 4267676एक्स अब जेसी-559621वाई),
16 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 4266144एल अब जेसी-
559622एफ), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार कृष्ण अवतार वर्मा (सं. 4264900एन अब जेसी-559623
के), 05 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार श्रीकान्त सिंह (सं. 8031272वाई अब जेसी-559624एम),
22 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार विचित्रानन्द पानी (सं. 4265477एल
अब जेसी-559625पी), 05 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अवधेश कुमार सिंह (सं. 4262484डब्ल्यू अब जेसी-
559626एक्स), 13 मार्च 2006/04 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 4 फरवरी जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जरमास केरकेट्टा (सं. 4262924वाई अब जेसी-559627ए),
23 मार्च 2006/19 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 19 फरवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर ओम प्रकाश गुप्ता (सं. 4261657डब्ल्यू अब
जेसी-559628एच), 13 मार्च 2006/01 मार्च 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार रमेश मिश्र (सं. 4261929एल अब जेसी-559629एल), 18
अप्रैल 2006/08 मार्च 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 08 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार बिरसा लोहरा (सं. 4263758एच अब जेसी-559630ए), 13
अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 (ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

लद्दाख स्काउट्स

नायब सूबेदार (जी. डी.) के पद पर

हवलदार फुंचोक नामग्याल (सं. 9923370डब्ल्यू अब जेसी-
588394एम), 10 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

हवलदार शेर सिंह (सं. 9923382एल अब जेसी-588395पी),
28 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

हवलदार दोरजे वांग्याल (सं. 9923405एफ अब जेसी-588396एक्स),
10 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

हवलदार रिगज़िन आंगचुक (सं. 9923418वाई अब जेसी-588397ए),
28 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

हवलदार छेतन ताशी (सं. 9923438एम अब जेसी-588398एच), 10
जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

हवलदार छेरिग आंगचुक (सं. 9922866वाई अब जेसी-588399एल),
18 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार फुंचोक आंगचुक (सं. 9923072ए अब जेसी-588400पी),
10 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार छेरिग आंगदुस (सं. 9923510एक्स अब जेसी-588401एक्स),
14 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार थिलेस ग्याचो (सं. 9923512एच अब जेसी-588402ए),
16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार स्कर्मा चोस (सं. 9923522एम अब जेसी-588403एच),
08 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार स्तांज़िन वांग्टक (सं. 9923524एक्स अब जेसी-588404एल),
31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार अहमद (सं. 9923531एन अब जेसी-588405एन), 23 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार छेबांग दोरजे (सं. 9923535के अब जेसी-588406डब्ल्यू),
17 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार थुगस्तन खग्यास (सं. 9923537पी अब जेसी-588407वाई),
09 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार मोहमद यूसुफ (सं. 9923538एक्स अब जेसी-588408एफ),
09 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार ताशी चैपल (सं. 9923539ए अब जेसी-588410वाई),
18 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार पदमा दोरजे (सं. 9923548एफ अब जेसी-588411एफ),
04 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार ताशी आंगचुक (सं. 9923553एम अब जेसी-588413एम),
25 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार स्तांज़िन आंगचुक (सं. 9923554पी अब जेसी-588415एक्स),
03 मई 2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार लिपिक (जी. डी.) के पद पर

हवलदार लिपिक करम सिंह (सं. 9922864एन अब जेसी-588409के),
22 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार लिपिक करम चंद (सं. 9922921के अब जेसी-588412के),
27 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार लिपिक छेतन थिलेस (सं. 9923415एल अब
जेसी-588414पी), 06 मई 2006/01 मई 2006 *

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भगवान सिंह (सं. 3179519एम अब जेसी-489850के), 04
अप्रैल 2006

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 3179856एफ अब जेसी-489851एम), 10
अप्रैल 2006

हवलदार भरत सिंह (सं. 3182452के अब जेसी-489852पी), 28
अप्रैल 2006

हवलदार अजीत सिंह (सं. 3179858एम अब जेसी-489853एक्स),
01 मई 2006

हवलदार नरेश कुमार (सं. 3177322एक्स अब जेसी-489854ए), 04
मई 2006

हवलदार राम पाल (सं. 3178383एक्स अब जेसी-489855एच), 09
जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 3179228एम अब जेसी-489856एल),
01 जून 2006

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3182908एक्स अब जेसी-489857एन),
01 जून 2006

दिवाकर

अवर सचिव

सं. 469, दिनांक 30 अगस्त 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कौर)

सर्जन कैप्टन (व समकक्ष) से सर्जन कोमोडोर (व समकक्ष) रैंक में
एस के सतसंगी (एम आर-03559एच) (75650), 09 सितम्बर 2005
(वेतन व पैन्सन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च
2005 से दी जाती है)

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से. चि.से. (का.)

सं. 470, दिनांक 31 अगस्त 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी नं., नाम, आर्म

(46935) सुदेश रमेश देसाई, जे ए जी

(53881) अविनाश शर्मा, एम एफ

(56317) नरेश कुमार, इंजीनियर्स

(64819) निशित मिश्रा, ई एम ई

(64954) रविन्दर नेगी, ई एम ई

(64955) कपिल सानवार, ई एम ई

(64956) मनदीप सिंह निज्जर, इंजीनियर्स

(64958) राजेश शर्मा, सिगनल्स

(64959) दिनेश सिंह महेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स

(64960) विक्रम खरमी, इंजीनियर्स

(64962) कुलकर्णी अजित विजय, ई एम ई

(64963) गौरव अग्रवाल, ई एम ई

(64964) विनोद कुमार विजयन, इंजीनियर्स

(64965) शैलेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स

(64966) मिश्रा अखिलेश कन्हैयालाल, इंजीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

एस सी नं., नाम, आर्म

(00044) राजीवन सी वी, इंजीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004

स्थायी कमीशन (एस एल)

कप्तान से मेजर

एल एल नं., नाम, आर्म

(4658) हरिहर सिंह, एस एल, इंजीनियर्स

(4659) अनन्त कुमार, एस एल, ई एम ई

(4660) मनिकन्दन पी, एस एल, ए ओ सी

(4661) जे एस जन्तवाल, एस एल, सिगनल्स

--15 अप्रैल 2006

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

आई सी नं., नाम, आर्म

(35081) वी सी गुप्ता, इंजीनियर्स

(37255) आशिष दास, इन्फैन्ट्री

(44214) मनजीत सिंह, ए ओ सी

(45072) जोसफ पुराकेल, आर्टी

(45395) पी वी वो विद्यामागर, ई एम ई

--16 दिसम्बर 2004

(46935) सुदेश रमेश देसाई, जैंग

--17 अप्रैल 2006

(51233) समीर श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री

एस एल

(4663) एस एस गाड़करी, ए पी टी सी

--13 जून 2005

एस एल नं., नाम एवं आर्म

(04057) गंगा सिंह, एस एल बी/आर

(04058) विनोद कुमार लामा, एस एल/क्यू एम

(04059) गुरबक्श सिंह, एस एल/टी ओ टी

(04061) रोला संकरा रेड्डी, एस एल/टी ओ टी

(04062) बाला सुब्रमनियन ए पी, एस एल बी/आर

(04063) भूपाल सिंह, एस एल क्यू एम

(04065) प्रेम सिंह, एस एल ई/एम

(04066) वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, एस एल टी ओ टी

(04067) सत्या देव, एस एल टी ओ टी

(04068) यलप्पा सन्नाममनावर, एस एल बी/आर

(04069) के दत्तात्रेय मूर्ति, एस एल बी/आर

(04070) राजीव पूलेरी, एस एल बी/आर

(04071) लक्ष्मण वासुदेवरॉव गाले, एस एल आर ओ

(04072) राजन एम, एस एल ए ई

(04073) शाजू एन टी, एस एल आर ओ

(04074) रमेश चन्द्रा स्वेन, एस एल आर्क

(04075) राम किशन, एस एल ए ई

(04076) आनन्द कुमार पाण्डे, एस एल आर ओ

(04077) एस केलासम, एस एल क्यू एम

(04079) सुनील कुमार पी, एस एल बी आर

(04081) बिजेन्द्र सिंह, एस एल आर ओ

(04082) सुभाष चन्द्र यादव, एस एल आर ओ

(04083) बी एल भार्गवा, एस एल आर ओ

(04084) भूपिन्द्र पाल सिंह, एस एल आर ओ

(04085) पूरन सिंह रक्वाल, एस एल आर ओ

(04086) सुनील पंकज शर्मा, एस एल आर ओ

(04087) राजन इ के, एस एल आर ओ

(04088) कृष्णा कुमार, एस एल आर ओ

(04089) ए के पाणिग्रही, एस एल आर ओ

(04090) सुरेश कुमार डोगरा, एस एल क्यू एम

(04091) कंगारा श्रीहरी, एस एल आर ओ

(04092) रन्जोध सिंह, एस एल आर ओ

(04093) देवी दयाल भगत, एस एल आर ओ

(04094) मोहन आर, एस एल ई आर

(04095) वी दुराईसिंगम, एस एल क्यू एम

(04096) ओम प्रकाश यादव, एस एल क्यू एम

(04097) धर्म जीत, एस एल क्यू एम

(04098) बेनुर्धर सैकिया, एस एल क्यू एम

(04099) जयापालन ई के, एस एल टी ई ओ

(04100) देव गिरि, एस एल आर ओ

(04101) राजबीर सिंह, एस एल आर ओ

(04104) अनवर अली, एस एल क्यू एम

(04105) अमिताभ प्रकाश रॉय, एस एल क्यू एम

(04106) सतनाम सिंह गिल, एस एल क्यू एम

(04107) युवराज लामा, एस एल क्यू एम

(04108) भीम सेन, एस एल/साईफर

(04109) दया राम, एस एल आर ओ

(04110) पुसापति एन एम राजू, एस एल ए ई

(04112) ओम प्रकाश, एस एल ए ई

(04113) गुरमीत सिंह, एस एल टी इ ओ

(04114) सोहन सिंह थापा, एस एल/ए ई

(04115) राजेन्द्र सिंह पनवर, एस एल बी/आर

(आईसी-40234), ले. कर्नल (टीएस) अरुण कुमार, आर्टी

(04116) ई पन्नीर सेलवान, एस एल बी/आर

(अ) पेन्शन हेतु पाँच वर्ष की सेवा का समपहरण।

--17 अप्रैल 2006

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

शिव राम बैरवा

--03 फरवरी 2005

उप निदेशक

एम एस-8(सी)

(आईसी-25810), मेजर एच एच रन्धावा, इंजीनियर्स

(अ) बर्खास्तगी के साथ सेवा को समाप्त किया जाए।

--27 जनवरी 2005

थल सेना शाखा

सं. 471, दिनांक 31 अगस्त 2006 :--निम्नलिखित अधिकारियों को-----द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-47955वाई), मेजर डब्ल्यू आर खान, ई.एम.ई.

(अ) रैंक एवं पूर्वता इस तरह से ली जाए कि मूल मेजर के रैंक में उनकी नियुक्ति की तारीख 11 जनवरी 2000 हो।

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--26 अप्रैल 2003

(आईसी-50430), मेजर संजय अहलावत, एएससी

(अ) पदोन्नति के लिए दो वर्ष की सेवा का समपहरण किया जाए।

(ब) पेन्शन हेतु दो वर्ष की सेवा का समपहरण। और

(स) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--10 जनवरी 2004

(आईसी-52768के), कैप्टन जी रे, ए डी ए

(अ) पदोन्नति के लिए तीन मास की सेवा का समपहरण किया जाए।

--24 फरवरी 2005

(आईसी-50094वाई), मेजर आर एस कोहली, ई.एम.ई.

(अ) रैंक एवं पूर्वता इस तरह से ली जाए कि मूल रैंक में मेजर के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख 15 दिसम्बर 2001 हो।

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--26 अप्रैल 2003

(आईसी-46963), मेजर वैद्यनाथन एच, ईन्ट.

(अ) पदोन्नति के लिए छः महीने की सेवा का समपहरण किया जाए।

(स) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--31 मार्च 2005

(आईसी-40258), ले. कर्नल (टीएस) पी पी एस थिन्ड, ईन्फैन्ट्री

(अ) पेन्शन हेतु एक वर्ष की सेवा का समपहरण। और

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--07 जनवरी 2005

शिव राम बैरवा

उप निदेशक

एम एस-8(सी)

(आईसी-39167ए), मेजर पी आलूवालिया, इंजीनियर्स

(अ) पदोन्नति के लिए पाँच वर्ष की सेवा का समपहरण किया जाए।

(ब) पेन्शन हेतु पाँच वर्ष की सेवा का समपहरण।

(स) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--25 जुलाई 2003

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

स्थायी सेना

पैदल सेना

लड़ाख स्काउट्स

सं. 472, दिनांक 28 अगस्त 2006 :--भारत के राजपत्र सं. 13, दिनांक 30 मार्च 2002 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 179, दिनांक 25 फरवरी 2002

शीर्ष "नियमित सेना" उपशीर्षक 'इन्फैन्ट्री' और "लद्दाख स्काट इन्फैन्ट्री" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के स्थान पर

नायब सूबेदार तासी नामग्याल (जेसी-588061एन), 01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार तासी नामग्याल (जेसी-588061एन), 26 सितम्बर 2000/01 जुलाई 2000 *

नायब सूबेदार सोनम अंगचूक (जेसी-588017डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार सोनम अंगचूक (जेसी-588017डब्ल्यू), 21 जुलाई 2000/01 जुलाई 2000 *

नायब सूबेदार रिग्जीन नोरकल (जेसी-588018वाई), 01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार रिग्जीन नोरकल (जेसी-588018वाई), 01 जुलाई 2000 *

नायब सूबेदार रिग्जीन दोरजे (जेसी-588029एल), 01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार रिग्जीन दोरजे (जेसी-588029एल), 01 जुलाई 2000

दिवाकर

अवर सचिव

सं. 473, दिनांक 31 अगस्त 2006 :--

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 27 अगस्त 2005 को शीर्षक नियमित सेनास्थायी कमीशन एवं उप-शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं..... में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए :--(आईसी-47649), जे एस बब्बर, आर्टी

पढ़ा जाए :--रिक्त।

शिव राम बैखा

उप निदेशक

एम एस-8(सी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd September 2006

No. 459, dated 28 August 2006—The President is pleased to appoint the undermentioned adhoc Section Officers borne on the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Section Officer on adhoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 25-7-2006 (FN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) The adhoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS;
- (ii) The adhoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LCDE). In the event of the adhoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by the DoP&T.

| S.No. | Name of the officer |
|-------|---------------------|
| 1. | S.K. Biswas |
| 2. | Mohd. Idris |
| 3. | N.K. Kalra |
| 4. | Kamal Kishore |
| 5. | P.S. Oberoi |

Consequent on promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 31st May, 2006, the President is pleased to appoint Shri Nand Kishore, Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Labour & Employment, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 3rd July, 2006 till 31-12-2006 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions :—

- (i) The adhoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade Indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

- (ii) Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. SARASWATHY,
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 460, dated 31 August 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt.

The undermentioned 202 officers of SSC(NT)-80 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 17 Sep. 2005. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 17 Sep 2005 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended:—

Personal Number, Name and Arm/Service

(SS-41512F) Vijayendra Singh Yadav, Mech
 (SS-41513K) Sudhir Gulia, Mech
 (SS-41514M) Bhaskar Rai, Inf
 (SS-41515P) Pankaj Kumar Rawat, ASC
 (SS-41516X) K. K. Sarish, AAD
 (SS-41517A) Rohit Jakhar, AC
 (SS-41518H) Sojan O. T., Arty
 (SS-41519L) Rishi Tiwari, Inf
 (SS-41520A) Tripurari Singh, Engr
 (SS-41521H) Rohit Singh Sangwan, Mech
 (SS-41522L) Kanishka Balyan, Inf
 (SS-41523N) Krishna Kant Bajpai, Inf
 (SS-41524W) Rahul Kasana, Int
 (SS-41525Y) J. Gaurav Sharma, Arty
 (SS-41526F) Sagolshem Bikram Singh, AAD
 (SS-41527K) Trivedi Nisheeth Jayantilal, Arty
 (SS-41528M) Santosh Kumar Bharmoria, Inf
 (SS-41529P) Madhusudan B. S., Arty
 (SS-41530K) Harneet Singh Sangha, Mech
 (SS-41531M) Dharmaveer Singh Chauhan, Arty
 (SS-41532P) Sandeep Kumar, AC
 (SS-41533X) Ravinder Singh Rathore, EME

| | |
|--|---|
| (SS-41534A) Pathak Adityavardhan Rajeev, Inf | (SS-41573Y) Mukesh Chandra, Inf |
| (SS-41535H) Rajpal, Arty | (SS-41574F) Darekar Digvijay Dattatray, Inf |
| (SS-41536L) Deshpande Aniruddha Balkrishna, Arty | (SS-41575K) Nitesh Singh, Inf |
| (SS-41537N) Shamsher Singh, Engr. | (SS-41576M) Rowen Leslie Brass, Inf |
| (SS-41538W) Arun Kumar MS, Arty | (SS-41577P) Akash Sharma, Arty |
| (SS-41539Y) Jagmohan Mehra, Inf | (SS-41578X) Avdhesh Choudhary, Inf |
| (SS-41540N) Saurabh Sameer, Inf | (SS-41579A) Mukesh Sharma, Inf |
| (SS-41541W) Deepak Bhardwaj, AC | (SS-41580P) Vikuto Asumi, Inf |
| (SS-41542Y) Anand Singh, Inf | (SS-41581X) Ranjeet Singh, AC |
| (SS-41543F) Vipul Sharma, Arty | (SS-41582A) Ajeet Kumar Agarwal, Inf |
| (SS-41544K) Mohit Dubey, AC | (SS-41583H) Anand Bahuguna, AC |
| (SS-41545M) Girish Thakur, Arty | (SS-41584L) Nikhil Zope, Arty |
| (SS-41546P) Kislaya Singh, Arty | (SS-41585N) R. Bharathi Elango, Inf |
| (SS-41547X) Ambarish Mahanta, Inf | (SS-41586W) Devinder Kumar Bhagat, Inf |
| (SS-41548A) Vaibhav Vadera, Inf | (SS-41587Y) Shetty Sandeep Shekhar, Inf |
| (SS-41549H) Saurabh Sharma, AAD | (SS-41588F) S. Thenkhomang Baite, Inf |
| (SS-41550X) Kapil Sharma, EME | (SS-41589K) Chintham Budheshwar Singh, Arty |
| (SS-41551A) Pawan Kumar Bohra, Inf | (SS-41590Y) Saurabh Gupta, Inf |
| (SS-41552H) Mahipal Singh, AOC | (SS-41591F) Arnab Banerjee, Arty |
| (SS-41553L) Lukshya Pratap Singh Shekhawat, Mech | (SS-41592K) Manjeet Singh, Inf |
| (SS-41554N) Udayan Pratap Singh, Inf | (SS-41593M) Sandeep Kausal, Inf |
| (SS-41555W) Dushyant, Mech. | (SS-41594P) Devender Singh, Arty |
| (SS-41556Y) Ranjeet Singh Panwar, Inf | (SS-41595X) Suman Gandhi Marabattula, Inf |
| (SS-41557F) Sudeep Singh, Mech | (SS-41596A) Patel Gopinandan Dineshkumar, Int |
| (SS-41558K) Rajneesh Pandey, Int | (SS-41597H) Jitendra Naruka, Inf |
| (SS-41559M) Sushil Kumar Singh, Inf | (SS-41598L) G. Senthilnathan, Inf |
| (SS-41560F) Laxman Singh, Inf | (SS-41599N) Vivek Kumar Sharma, AC |
| (SS-41561K) Hemant Mehta, Inf | (SS-41600X) Abhinav Manembeth, Arty |
| (SS-41562M) Indrajit Suresh Rao Jadhav, Inf | (SS-41601A) Sukant Krishna Joshi, Inf |
| (SS-41563P) Tarandeep Singh Gill, Inf | (SS-41602H) Surendra S, Inf |
| (SS-41564X) Sanjeev G, Engr | (SS-41603L) Felix Arnold F, Inf |
| (SS-41566H) Rajinder Jit Singh, Arty | (SS-41604N) Manish Dhyani, Inf |
| (SS-41567L) Rajesh Narayanan, Arty | (SS-41605W) Gaurav A Pagnis, Inf |
| (SS-41568N) Kuldeep Kumar, Inf | (SS-41606Y) Sandeep Kumar Sharma, EME |
| (SS-41569W) Ankush Pratap, Int | (SS-41607F) Shaiwal Shrivastava, Inf |
| (SS-41570L) Vinod Viswanath, Inf | (SS-41608K) Krishan Bhandari, Int |
| (SS-41571N) Joshi Jaydev Rajnikant, Arty | (SS-41609M) Rajat Bali, Arty |
| (SS-41572W) Jagdish Singh Samant, AC | (SS-41610F) Praveen Tripathi, Arty |

| | |
|--|--|
| (SS-41611K) Akshay Lamba, AC | (SS-41650H) Gagan Deep Singh Rathore, Inf |
| (SS-41613P) Manvijay M Singh, Inf | (SS-41651L) Subodh Sudan, Mech |
| (SS-41614X) Jatin Sharma, ASC | (SS-41652N) Niranjana Singh Dewal, Inf |
| (SS-41615A) Piyush Kumar Chhetri, Arty | (SS-41653W) Khalkar Swapnil Shivaji, Engr. |
| (SS-41616H) Jyoti Swarup Panigrahi, Arty | (SS-41654Y) Jimmy James, Inf |
| (SS-41617L) Rajinder Singh, Arty | (SS-41655F) Raman Adhikari, Inf |
| (SS-41618N) Nikhil Dhawan, Inf | (SS-41656K) Shashi Kumar KS, AAD |
| (SS-41619W) Kuldeep Singh Chandi, Inf | (SS-41657M) Ravi Charan, AC |
| (SS-41620L) Sourabh Gupta, Inf | (SS-41658P) Manohar Diyali, Mech |
| (SS-41621N) Vikas Kadian, Int | (SS-41659X) Sakoon, AC |
| (SS-41622W) Dhantaj Singh, AC | (SS-41660M) Blesson K Daniel, AAD |
| (SS-41623Y) Anil Kumar Chahar, Int | (SS-41661P) Ajay Kumar Bhardwaj, Arty |
| (SS-41624F) Himmat Singh, Inf | (SS-41662X) Adhav Sachin Jagganath, EME |
| (SS-41625K) Ashish Jha, AC | (SS-41663A) Mishra Nitinkumar, Arty |
| (SS-41626M) Rajat Kumar Birman, Inf | (SS-41664H) Arjun Kapur, AC |
| (SS-41627P) Aditya R. Zanane, Inf | (SS-41665L) Goutham Jaiswal, Inf |
| (SS-41628X) Jonathan Alexander, Inf | (SS-41666N) Sunil Kumar, Arty |
| (SS-41629A) K. N. Thimmayya, Arty | (SS-41667W) Rajender Negi, Inf |
| (SS-41630P) Sachin Bhatnagar, Arty | (SS-41668Y) Soubam Chalamba, Inf |
| (SS-41631X) Amit Yadav, Arty | (SS-41669F) Pradeep Kumar, Yadav, AAD |
| (SS-41632A) Suraj Bhan Singh, Arty | (SS-41670W) Arjun Singh Chauhan Inf |
| (SS-41633H) Nirvan Bajpai, AC | (SS-41671Y) Ajit Pal Singh, Inf |
| (SS-41635N) Chandra Shekhar Yadav, Arty | (SS-41672F) Praveen R, AAD |
| (SS-41636W) Varun Kumar, Arty | (SS-41673K) Vikas Guleria, Inf |
| (SS-41637Y) Sourabh Bali, Inf | (SS-41674M) Arekar Mayur Manohar, Inf |
| (SS-41638F) Gaurav Pandey, Inf | (SS-41675P) Hemender Vasudeva, Inf |
| (SS-41639K) Rasal Abhijit Charudatta, Engr | (SS-41676X) Roshan Krishnappa, Inf |
| (SS-41640Y) Mayank Gupta, Inf | (SS-41677A) Shashank Shekhar, Inf |
| (SS-41641F) Golvelkar Hemang Kamalakar, Inf | (SS-41678H) Akshay Deep Sharma, Engr. |
| (SS-41642K) Raj Shobi Shammi, Inf | (SS-41681H) Kesri Lal Bhattacharya, Int |
| (SS-41643M) Vineet Shekhar Prem, Inf | (SS-41682L) Naveen Chauhan, Inf |
| (SS-41644P) Deepak Vaishnav, Int | (SS-41683N) Amit Kumar Shukla, Arty |
| (SS-41645X) Yagyandra Singh Parmar, Inf | (SS-41684W) C. Arvind Reddy, Inf |
| (SS-41646A) Gaurav Kundu, Inf | (SS-41685Y) Suresh Kumar Dey, Arty |
| (SS-41647H) Rohit Misra, Inf | (SS-41686F) Ashutosh Ranjan Kar, Arty |
| (SS-41648L) Vishwasrao Prashant Prakash, Inf | (SS-41688M) Stephen Anand A, Arty |
| (SS-41649N) P. Manish, Inf | (SS-41689P) Chandrasenan B. R, Inf |
| | (SS-41690K) Naveen Kumar G, Arty |

(SS-41691M) Rohit Kumar Dalal, AOC
 (SS-41692P) Pratik Gupta, Engr
 (SS-41693X) Shiv Narayan Shukla, Engr
 (SS-41694A) Kulkarni Omkar Kishor, Arty
 (SS-41695H) Rudrashish Pandey, Arty
 (SS-41696L) Ranadive Sandeep Nandkumar, Arty
 (SS-41698W) Abhilash K M, Inf
 (SS-41699Y) Tanmoy Raha Roy, Inf
 (SS-41700H) Avaneesh P Singh, Arty
 (SS-41701L) Karan Narang, AC
 (SS-41702N) Roopak Radhakrishnan, Engr
 (SS-41703W) Harpreet Singh Walia, ASC
 (SS-41704Y) Sudeep Singh, Arty
 (SS-41705F) Chandan Kharyal, Arty
 (SS-41706K) Ritchie Ashwin S.
 (SS-41708P) T. Santosh, Engr
 (SS-41709X) Duse Arnol Prabhakar, AAD
 (SS-41710M) Rahul Dev
 (SS-41711P) Digvijay Juyal, Inf
 (SS-41712X) Rahul Baghel, EME
 (SS-41713A) Pradeep Singh Gohil, AC
 (SS-41714H) Ranjeet Kumar Jha, Mech
 (SS-41716N) Shankar Pati Banerjee, Arty
 (SS-41717W) Deepak Suyal, Inf
 (SS-41718Y) Adwit Patnaik, Inf
 (SS-41721Y) Biswanath Mukherjee, Inf
 (SS-41722F) Vinayak J. S, Inf
 (SS-41723K) Prasad S Raghunath R Srinivasa, Inf
 (SS-41724M) Rohit Atre, Inf

1. The undermentioned 45 Lady Officers of WSES(O)-26 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 17 Sep 2005. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 17 Sep 2005 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended :—

Personal Number, Name, Arm/Service

(WS-01070L) Laksmi S, ASC

(WS-01071N) Nutan Chhillar, ASC

(WS-01072W) Pragya Painuly, AOC
 (WS-01073Y) M R Bhavani, ASC
 (WS-01074F) Kranti, ASC
 (WS-01075K) Harjot Kaur, AEC
 (WS-01076M) Bhojane Renuka Shashikant, ASC
 (WS-01077P) Sony Maria Joseph, ASC
 (WS-01079A) Gurpreet Kaur, JAG
 (WS-01080P) Jashan Khaliwal, ASC
 (WS-01082A) Preeti Sharma, AAD
 (WS-01083H) Susmita Chakraborty, ASC
 (WS-01086W) Amrita Singh, AOC
 (WS-01089K) Shweta Sharma, AOC
 (WS-01090Y) Shipra Mishra, AEC
 (WS-01091F) Prerana Dubey, AAD
 (WS-01093M) Simta Kotwal, AOC
 (WS-01094P) J. Sofia, AOC
 (WS-01096A) Ankita Srivastava, ASC
 (WS-01097H) Sandhya K, ASC
 (WS-01099N) Neha Goyal, INT
 (WS-01101A) Chandra Prabha, ASC
 (WS-01102H) Deepshikha Singh, AAD
 (WS-01103L) Bindu Sharma, Engr
 (WS-01106Y) Chandni Vasudev, AOC
 (WS-01107F) A. Anupama, ASC
 (WS-01108K) Jyoti Singh, AEC
 (WS-01109M) Prabha Bisht, AEC
 (WS-01110F) Rupa C, AOC
 (WS-01111K) Vyas Pooja Pundrikbhai, AOC
 (WS-01114X) Julee, AAD
 (WS-01116H) H. Lalnunsangi, INT
 (WS-01117L) Mahalakshmi M, AAD
 (WS-01118N) Noshi Thapar, AOC
 (WS-01119W) Divya Singh, AEC
 (WS-01121N) Tanvi Gupta, AOC
 (WS-01123Y) Loveleen Kaur Mann, JAG
 (WS-01124F) Apeksha P, JAG
 (WS-01125K) Garvita Singh Kaushwah, AOC
 (WS-01126M) P. Praveena, EME
 (WS-01129A) Poonam Kaur, ASC
 (WS-01131X) Lopamudra Sahu, AOC

(WS-01132A) Inderpreet Kaur, INT

(WS-01134L) Baljeet Kaur, ASC

(WS-01136W) Jhilmil Mukherjee, AOC

2. The under mentioned 20 lady Officers of WSES(O)-26 Course are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) wef date shown against their Names below. On successful completion of their training at OTA Chennai, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, i.e., they are granted Short Service Commission for five years wef 17 Sep 2005. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 17 Sep 2003 for possession of technical qualification under the above AI:—

Personal Number, Name, Effective Date, Arm/
of special Service Short Service Commission (on probation)

(WS-01078X), Vandana Narayanan, 04 Apr 2005, EME

(WS-01081X), Shweta Dhingra, 04 Apr 2005, EME

(WS-01084L), Nirupama Devdutta Koppikar, 04 Apr 2005, EME

(WS-01085N), Mamta Gupta, 04 Apr 2005, Sigs

(WS-01088F), Aparna Iyer, 04 Apr 2005, Sigs

(WS-01092K), Pooja Rautela, 04 Apr 2005, EME

(WS-01095X), Ruchi, 04 Apr 2005, Sigs

(WS-01098L), Bhendwade Meghan Brahmakant, 04 Apr 2005, Engr

(WS-01105W), Kausakiya Shavika Ramesh, 04 Apr 2005, Engr

(WS-01112M), Geetanjali Sanan, 11 Apr 2005, Engr

(WS-01113P), Leeni Srivastava, 04 Apr 2005, Sigs

(WS-01115A), Madhu Rana, 11 Apr 2005, EME

(WS-01120L), Pallavi Srivastava, 04 Apr 2005, Engr

(WS-01122W), Salvia N Pillai, 04 Apr 2005, Engr

(WS-01127P), Manmeet Kaur, 04 Apr 2005, EME

(WS-01128X), Shilpi Khanka, 11 Apr 2005, Sigs

(WS-01130P), Divya Nair, 11 Apr 2005, EME

(WS-01133H), Deepti Vij, 04 Apr 2005, Engr

(WS-01135N), Chauhan Meghna Deepak, 10 Apr 2005, Engr

(WS-01137Y), Fiora Fredric Lall, 11 Apr 2005, Engr

S. K. SHARMA
Lt Col
AMS 8B

(NAVY BRANCH)

No. 461, dated 31st August 2006.—The President is pleased to make the following Appointment in the Executive Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. OF/1108/GS (X)/DES/02 dated 09 May 2006 from the date Shown against the Name :—

To be Sub Lt (on probation)

Direct Entry Scheme (Executive Branch)

Name of the Officers, P.No., Type of Commission, Date
of Commission

Sub Lt Dipesh Tyagi (05297N), SSC, 07-01-2002

Sub Lt S. Sreekanth (05298R), SSC, 07-01-2002

Sub Lt Avinash Balwada (05300W), SSC, 07-01-2002

Sub Lt Vivek Sharma (05302Z), SSC, 07-01-2002

Sub Lt Gaurav Mishra (05304B), SSC, 07-01-2002

Sub Lt Amit Mehan (05305F), SSC, 07-01-2002

Sub Lt Vinay Rana (05306H), SSC, 07-01-2002

VSSALATHIA
Commander
JDMPR (R&R)

No. 462, dated 28th August 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the undermentioned Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence, presently officiating as Section Officer on ad-hoc basis, as Section Officer on ad-hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for the period from 27.06.2006 to 30.06.2006 or till vacation of the 'Status quo' status of SOs as directed by CAT in OA No. 1295/2006, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and ;
- (ii) The ad-hoc Section Officers will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officers through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

S.No. Name of the officer

1. O.P. Joshi

2. Smt. K. Saraswati

3. Dharam Parkash-II

4. V.K. Kaura

5. Smt. Jyotsna Gupta

6. D.R. Sahu

| 1 | 2 |
|--------------------------|---|
| 7. S.K. Pandey | |
| 8. Smt. Sushma Rani | |
| 9. Vinod Kumar | |
| 10. B.M. Patnaik | |
| 11. Smt. Santosh Kumari | |
| 12. A.K. Singh | |
| 13. Smt. Nirmal Chabra | |
| 14. A.K. Saxena | |
| 15. Itbari Lal | |
| 16. D.C. Sharma | |
| 17. S. Das | |
| 18. S.N. Agarwal | |
| 19. Smt. Bhagwanti | |
| 20. D.P. Tanwar | |
| 21. P.B.S. Dinkar | |
| 22. Shasi Dharan Nair N. | |
| 23. K.K. Sharma | |
| 24. Shankar Ganguly | |
| 25. B.K. Gupta | |
| 26. J.P. Aswani | |
| 27. V.P. Singh | |
| 28. Krishana Prasad | |
| 29. Smt. Chander Kanta | |
| 30. Smt. Kanta Kamra | |
| 31. J.B. Gupta | |
| 32. R.S. Dabas | |
| 33. K.C. Upreti | |
| 34. S.K. Malhotra | |
| 35. Ramesh Goel | |
| 36. Kumar Pranav | |
| 37. Joginder Kumar | |
| 38. V.K. Ramnani | |
| 39. D.K. Chopra | |
| 40. Satish Kumar | |
| 41. Smt. Geeta Mahajan | |
| 42. Surinder Kumar | |

| 1 | 2 |
|-----------------------|---|
| 43. Ratan Singh | |
| 44. Yashpal | |
| 45. Sheikh Moideen M. | |
| 46. Shyam Swaroop | |
| 47. D. Sudarshan Rao | |
| 48. H.R. Batra | |
| 49. V. Thanabalan | |
| 50. G.C. Sharma | |

V. SARASWATHY, Deputy Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 463, dated 31st August 2006.—The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University :—

| Sl. No. | Name of the Vice Chancellor | Name of the University | Date of appointment as Vice Chancellor |
|---------|---|--|--|
| 1. | Prof (Dr.) Cynthia Pandian, Vice Chancellor | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu | 10 Mar 2005 |
| 2. | Prof Ram Prakash Singh, Vice Chancellor | Lucknow University, Lucknow | 06 Jan 2005 |
| 3. | Dr. Rameshchandra G Kothari, Vice Chancellor | Veer Narmad South Gujarat University, Surat, Gujarat | 22 Jun 2005 |
| 4. | R Sethuraman, Vice Chancellor | Shanmugha Arts, Science Technology & Research Academy (SASTRA) Deemed University, Thanjavur, Tamilnadu | 23 May 2001 |
| 5. | Dr. Shahabuddin Nuramahamad Pathan, Vice Chancellor | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | 14 Jul 2005 |
| 6. | Prof (Dr.) V Gopal Reddy, Vice Chancellor | Kakatiya University, Vidyaranyaपुरi, Warangal | 11 Oct 2004 |
| 7. | Prof Rajendra Govind Harshe, Vice Chancellor | University of Allahabad, Senate House, Allahabad | 13 Oct 2005 |
| 8. | Prof Ashok Kumar Kalia, Vice Chancellor | Sampumanand Sanskrit University, Varanasi | 08 Jun 2005 |

U.K. DHAR
Brig
Dy Dir Gen (MS)

No. 464, dated 28th August 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar Major

Sub Umesh Dehingia (JC-216187L), 03 Jan 2006@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Amar Nath (JC-223740L), 01 Feb 2006

Sub Laxmi Narayan (JC-216189W), 01 Feb 2006

Sub Gurmail Singh Ghuman (JC-214300W), 01 Feb 2006

Sub Raghunath Mukut (JC-216213F), 01 Mar 2006

Sub Devendra Kumar Sharma (JC-216214K), 01 Mar 2006

Sub Rajinder Singh (JC-216999Y), 02 Mar 2006&

Sub Shri Krishan Singh Yadav (JC-216215M), 01 Mar 2006

Sub Vijay Singh Rawat (JC-216193Y), 07 Mar 2006&

&(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Sher Singh (JC-217877F), 01 Apr 2006

Sub Abbas Ahmad Zaidi (JC-217878K), 01 Apr 2006

Sub Dharam Parkash (JC-223002F), 03 Apr 2006#

Sub Kulai Dharma Rao (JC-217165Y), 01 Apr 2006

#(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Bhoop Singh (JC-219016K), 01 May 2006

Sub Tej Singh Manral (JC-217883P), 01 May 2006

Sub Bal Mukund Pandey (JC-217169P), 01 May 2006

To be Subedar

Nb Sub Vijender Singh (JC-803024W), 01 Jan 2006

Nb Sub Bishan Singh (JC-803034A), 08 Jan 2006@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prabhakar Rai (JC-803028M), 09 Mar 2006#

Nb Sub Roshan Lal (JC-803041W), 09 Mar 2006#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mahender Singh (JC-803057F), 01 Mar 2006

Nb Sub Ravindra Goswami (JC-803061K), 01 Mar 2006

Nb Sub Hirdai Narain Kushwaha (JC-8033064X), 01 Mar 2006

Nb Sub Nand Lal Arora (JC-803069W), 01 Mar 2006

Nb Sub/Clk Vir Singh (JC-803182L), 01 Mar 2006

Nb Sub Binod Ballabh (JC-803072W), 01 Apr 2006

Nb Sub Ajai Kumar Singh (JC-803073Y), 06 Apr 2006&

Nb Sub Madhu Soodanan A (JC-803075K), 01 Apr 2006

Nb Sub Jai Vindra Singh (JC-803080P), 01 Apr 2006

Nb Sub Jagpal Singh (JC-803083H), 01 Apr 2006

Nb Sub Shakti Pal Singh (JC-803084L), 18 Apr 2006&

Nb Sub Surjit Singh (JC-803085N), 05 Apr 2006&

Nb Sub Umed Singh (JC-803086W), 01 May 2006&

Nb Sub Dinesh Chandra (JC-803090Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Ashok Kumar Yadav (JC-803091F), 01 Apr 2006

Nb Sub Shiv Kumar (JC-803094P), 01 Apr 2006

&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amar Singh (JC-803096A), 01 May 2006

Nb Sub Padma Datt (JC-803097H), 01 May 2006

Nb Sub Vikram Singh (JC-803099N), 01 May 2006

Nb Sub Simanchala Padhy (JC-803100X), 01 May 2006

Nb Sub Devendra Kumar Tripathi (JC-803102H), 01 May 2006

Nb Sub Jagat Narayan Yadav (JC-803104N), 01 May 2006

Nb Sub Ajeet Singh Yadave (JC-803105W), 01 May 2006

Nb Sub Raj Singh Rarh (JC-803109M), 01 May 2006

To be Naib Subedar

Hav Magan Lal (No. 9510007N now JC-803852F), 01 Feb 2006

Hav Rabindra Nath Pradhan (No. 9509499L now JC-803861H), 23 Mar 2006@

Hav Amaresh Biswas (No. 9509512K now JC-803862L), 28 Mar 2006@

Hav Dilbag Singh Chahal (No. 9509635W now JC-803863N), 23 Mar 2006@

Hav Dharmesh Kumar (No. 9509861N now JC-803864W), 24 Mar 2006@

Hav Uday Kumar Sharma (No. 9510006L now JC-803867K), 22 Mar 2006@

Hav Krishan Kumar (No. 9510028K now JC-803873X), 14 Mar 2006@

Hav Salak Ram (No. 9510034X now JC-803874A), 16 Mar 2006@

Hav Ravinder Singh (No. 9510039W now JC-803876L), 25 Mar 2006@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Naresh Sharma (No. 9510041N now JC-803878W),
01 Apr 2006

Hav Satish Kumar (No. 9510043Y now JC-803879Y),
01 Apr 2006

Hav Punnose VJ (No. 9510046M now JC-803882Y), 01 Apr
2006

Hav Ram Kishore Sharma (No. 9510047P now JC-803883F),
01 Apr 2006

Hav Jai Singh Shekhawat (No. 9510048X now JC-803884K),
03 Apr 2006#

Hav Ram Awadh Singh (No. 9510050P now JC-803886P),
01 Apr 2006

Hav Om Prakash (No. 9510053N now JC-803887X), 01 Apr
2006

Hav Roshan Singh (No. 9510054L now JC-803888A),
01 Apr 2006

Hav Shyam Prakash (No. 9510058F now JC-803891A)
01 Apr 2006

Hav Sudershan Kumar (No. 9510060Y now JC-803893L),
01 Apr 2006

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Om Prakash (No. 9509966X now JC-803829N), 01 Jan
2006

Hav Ajay Dutt Shukla (No. 9509982P now JC-803835F),
04 Jan 2006@

Hav Nirbhay Singh Tomar (No. 9509987N now JC-803838P),
01 Jan 2006

Hav Bharat Singh (No. 9509990N now JC-803840M),
02 Jan 2006@

Hav Pradeep Kumar Roy (No. 9509998A now JC-803845L),
01 Jan 2006

Hav Avtar Singh (No. 9509999H now JC-803846N), 12 Jan
2006@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Anil Kumar (No. 9510002P now JC-803849F), 01 Feb
2006

Hav Suresh Kumar (No. 9510003X now JC-803850W),
01 Feb 2006

Hav Vijay Pal Singh (No. 9510005H now JC-803851Y),
01 Feb 2006

Hav Murari Lal Sharma (No. 9510008W now JC-803853K),
01 Feb 2006

Hav Sumer Singh (No. 9510009Y now JC-803854M), 01 Feb
2006

Hav Vijendra Singh (No. 9510012Y now JC-803855P),
01 Feb 2006

Hav Satinder Singh (No. 9510014K now JC-803857A),
01 Feb 2006

Hav Komesesh Kumar (No. 9510017X now JC-803858H),
28 Feb 2006#

Hav/Clk Jai Dev Singh (No. 9508808W now JC-803859L),
01 Feb 2006

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Kundan Bhanot (No. 9510018A now JC-803868M), 01
Mar 2006

Hav Roy Joseph (No. 9510020X now JC-803869P), 06 Mar
2006&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Hawa Singh (No. 9510026Y now JC-803870K), 01 Mar
2006

Hav/Clk Kallu Singh (No. 9508810N now JC-803872P),
01 Mar 2006

V. K. KAPOOR
Under Secy.

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL (TRANSPORT))

No. 465, dated 29th August 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

To be Subedar (MT)

Nb Subedar Bhim Singh (JC-662186P), 01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 28 Jun 2005
without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Rama Shankar Yadav (JC-662415P), 07 Feb
2006*

Nb Subedar Dharmendra Kumar (JC-662432P), 29 Aug
2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Ram Dhaneshwar Bhagat (JC-662474F),
10 Jan 2006*

Nb Subedar Madan Prasad Rai (JC-662504N), 26 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005
without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Jitendra Prasad Singh (JC-662554Y), 20 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Bhagwan Singh (JC-662614H), 01 Jan 2006

Nb Subedar Mahesh Datt Sharma (JC-662598W), 30 Jan 2006*

Nb Subedar Rakesh Singh Chauhan (JC-662584W), 02 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Master Lal (JC-662647N), 01 Jan 2006

Nb Subedar Vishnu Datt Sharma (JC-662629H), 01 Feb 2006

Nb Subedar Bharateshwar Singh (JC-662649Y), 04 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Shrikant Singh (JC-662602N), 01 Feb 2006

Nb Subedar Kailash Singh Yadav (JC-662650N), 01 Feb 2006

Nb Subedar Hari Kant Dwivedi (JC-662651W), 04 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Vijay Kumar (JC-662675A), 01 Feb 2006

Nb Subedar Parisappa Bastwad (JC-662653F), 02 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Hira Singh (JC-662632L), 01 Feb 2006

Nb Subedar Om Prakash (JC-662633N), 01 Feb 2006

Nb Subedar Chhabi Ram Singh (JC-662681N), 04 Feb 2006*

Nb Subedar Hoshiyar Singh (JC-662635Y), 04 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Mahendra Singh Jat (JC-662668K), 01 Feb 2006

Nb Subedar Karan Singh (JC-662677L), 01 Feb 2006

Nb Subedar Rajendra Prasad Tiwari (JC-662634W), 01 Feb 2006

Nb Subedar Suresh Kumar (JC-662654K), 11 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Subedar Akhilesh Chandra Suman (JC-662254X), 01 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 28 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (MT)

Hav Basudeb Deb Nath (No. 13883673M now JC-663982K), 17 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Subash Chandra (No. 13886326Y now JC-663983M), 11 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Radhey Shayam Singh (No. 13890885A now JC-663984P), 03 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dwarka Prasad (No. 13889254L now JC-663985W), 14 Mar 2006*

Hav Makrand Singh (No. 13890929H now JC-663986A), 18 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Satyawan Giri (No. 13891022L now JC-663987H), 02 Feb 2006*

Hav Suresh Kumar (No. 13891124F now JC-663988L), 11 Apr 2006*

Hav Mahaveer Prasad (No. 13890968L now JC-663989N), 16 Mar 2006*

Hav Narain Datt (No. 13891129A now JC-663990H), 07 Mar 2006*

Hav Vijay Kumar Sharma (No. 13891714A now JC-663991L), 08 Mar 2006*

Hav Sandoj Bahadur Karki (No. 13891050X now JC-663992N), 04 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Daya Ram (No. 13887277N now JC-663993W), 04 Apr 2006*

Hav Sharda Prasad (No. 13890934X now JC-663994Y), 28 Mar 2006*

Hav Subash Singh (No. 13887943N now JC-663995F), 12 Apr 2006*

Hav Shrawan Singh (No. 13886205X now JC-663996K), 29 Mar 2006*

Hav Hari Shankar (No. 13894160X now JC-663997N), 14 Mar 2006*

Hav Girdharee Lal (No. 13887981K now JC-663998W),
04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pyare Lal (No. 13894162H now JC-663999Y), 01 Apr
2006*

Hav Rakesh Kumar (No. 13894173P now JC-664000W),
01 Apr 2006*

Hav Ramesh Singh (No. 13887887A now JC-664001W),
04 May 2006*

Hav Sri Shatrughna Prasad Tiwari (No. 13891763H now
JC-664002Y), 24 Apr 2006*

Hav Raj Kumar Prasad (No. 13891767Y now JC-664003),
20 Apr 2006*

Hav Arbind Sah (No. 13891797W now JC-664004K),
27 Apr 2006*

Hav Akshya Kumar Mallik (No. 13894038F now JC-
664005M), 26 Apr 2006*

Hav Rama Kant Rai (No. 13891832N now JC-664006P),
21 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Talwar (No. 13891674K now JC-664007X),
01 Apr 2006*

Hav Ombir Singh (No. 13889669A now JC-663935M),
8 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Desh Raj Singh (No. 13890930F now JC-663936P),
20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 22 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Naresh Kumar (No. 13885738N now JC-663937X),
16 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 24 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gokul Singh (No. 13889905W now JC-663938A),
20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 24 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nishi Kanta Sinha (No. 13885501W now JC-
663939H), 06 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jhalendra Prasad Singh (No. 13883352P now JC-
663940X), 06 Mar 2006*

Hav Ram Dulare (No. 13890213N now JC-663941A),
06 Mar 2006*

Hav Kamal Singh (No. 13891146A now JC-663942H),
20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Sajan Niyajaha MK Saheb (No. 13889204A now JC-
663943L), 08 Mar 2006*

Hav Ram Karan Ram (No. 13894019W now JC-663944N),
18 Mar 2006*

Hav Jagar Nath Singh Kushwaha (No. 13891228H now
JC-663945W), 15 Mar 2006*

Hav Vishnu Datt (No. 13887346Y now JC-663946Y),
14 Mar 2006*

Hav Sivadasan K (No. 13889744Y now JC-663948K),
20 Mar 2006*

Hav Ranjeet Singh (No. 13891101A now JC-663949M),
14 Mar 2006*

Hav Nandan Singh (No. 13891179L now JC-663950F),
06 Mar 2006*

Hav Ram Vinod Kumar (No. 13886992K now JC-663951K),
28 Feb 2006*

Hav Jasmal Singh (No. 13891154Y now JC-663952M),
11 Mar 2006*

Hav Gajendra Sahni (No. 13891120L now JC-663953P),
14 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Madhab Chandra Mandal (No. 13891712P now JC-
663954X), 01 Mar 2006*

Hav Satyaveer Dhobi (No. 13887409W now JC-663955A),
03 Mar 2006*

Hav Tejveer Sharma (No. 13890342H now JC-663956H),
07 Mar 2006*

Hav Ashok Kumar Jha (No. 13890129N now JC-663957L),
21 Mar 2006*

Hav S Chella Durai (No. 13891219F now JC-663958N),
20 Mar 2006*

Hav Lakshmi Shankar (No. 13890921A now JC-663959W),
30 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar (No. 13894154K now JC-663960L),
01 Mar 2006*

Hav Bhairaba Chander Pandey (No. 13887961W now JC-663961N), 01 Mar 2006*

Hav Sudama Ram (No. 13894086F now JC-663962W), 01 Apr 2006*

Hav Laxmi Narayan Singh (No. 13887477K now JC-664015F), 22 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhola Oran (No. 13889249A now JC-664016K), 11 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chaitanya Jena (No. 13890448A now JC-664017M), 12 May 2006*

Hav Purna Chandra Boro (No. 13889648K now JC-664018P), 12 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Kumar Singh (No. 13891802W now JC-664019X), 08 May 2006*

Hav Ramesh Chand Yadav (No. 13891809A now JC-664020M), 16 Apr 2006*

Hav Shiv Sanahi Pd Gupta (No. 13894041F now JC-664021P), 17 May 2006*

Hav Surendra Kumar Dubey (No. 13891848Y now JC-664022X), 12 May 2006*

Hav Arbind Kumar (No. 13891855P now JC-664023A), 11 May 2006*

Hav Amilal Jhahria (No. 13894383P now JC-664024H), 18 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Randhir Singh (No. 13894392W now JC-664025L), 01 Apr 2006*

Hav Shiva Kant (No. 13890209L now JC-664026N), 11 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav MD Mustakim Khan (No. 13894181N now JC-664027W), 01 May 2006*

Hav Govind Kumar Biswas (No. 13894231N now JC-664028Y), 10 May 2006*

Hav Ramvir Singh (No. 13891964F now JC-664029F), 17 May 2006*

Hav Birendar Pal (No. 13894302K now JC-664030W), 22 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav B. Chinna Narasimhulu (No. 14366810X now JC-269040W), 17 Feb 2006/19 Aug 2005*

Hav Ghodake Sugrio Bhagwan Rao (No. 14385975L now JC-269041Y), 14 Mar 2006/01 Sep 2005*

Hav Suryakant Mishra (No. 14476375W now JC-269042F), 17 Feb 2006/01 Oct 2005*

Hav Ishwar Chand (No. 14365511M now JC-269043K), 14 Mar 2006/01 Nov 2005*

Hav Khem Raj (No. 14467231H now JC-269044M), 25 Feb 2006/01 Nov 2005*

Hav Ram Lal (No. 14360948W now JC-269045P), 24 Dec 2005/30 Nov 2005*

Hav Deo Prasad Singh (No. 14368949N now JC-269046X), 21 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Kunwar Bahadur Singh (No. 14480882F now JC-269047A), 03 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Bharat Kumar Tamangh (No. 14468874W now JC-269048H), 25 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Ratan Singh (No. 14376144L now JC-269049L), 21 May 2006/01 Jan 2006*

Hav Rakesh Kumar (No. 14487288H now JC-269050A), 24 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav D. Subramanian (No. 14380293W now JC-269051H), 22 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Tara Chand (No. 15105143L now JC-269052L), 2 Jan 2006/01 Feb 2006*

RHM Muhamadali S (No. 14365344F now JC-269053N), 16 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav T. Chandra Sekhara Rao (No. 14495746H now JC-269054W), 16 Mar 2006/01 Feb 2006*

BMH PM Unnikrishnan (No. 14492503M now JC-269055Y), 16 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Gtd Seniority wef)

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 466, dated 28th August 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub (RT) Kamla Prasad (JC-418578Y), 13 Jan 2006

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Mohanan Pillai (JC-216441K), 15 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 28 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Surendra Pal Singh (JC-418576N), 01 Apr 2006*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Devi Das (JC-419634Y), 18 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 08 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Louis Joseph (JC-419192L), 05 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Naresh Kumar (JC-419239L), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 14 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohan Singh (JC-419612A), 01 Mar 2006

Nb Sub Tham Bahadur Pun (JC-419292W), 08 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mangu Lal (JC-419368L), 08 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kushal Kumar (JC-419492M), 01 May 2006*

Nb Sub Megh Singh Thakur (JC-419624P), 01 May 2006*

To be Naib Subedar

Hav Uthaman Nair KP (No. 14905744F now JC-420497X), 20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Shekhar Kumar Chaudhary (No. 14918329Y now JC-420498A), 07 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Kumar Pal (No. 14906833M now JC-420499H), 30 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Kant Bharagava (No. 14908054H now JC-420500M), 02 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Khushi Lal (No. 14905294P now JC-420501P), 25 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Singh No. 14908296L now JC-420502X), 25 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Hans Raj Swami (No. 14907820F now JC-420503A), 06 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmit Singh (No. 14910465A now JC-420504H), 08 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Satender Singh (No. 14908317W now JC-420505L), 01 Mar 2006

Hav Gyan Singh Bisht (No. 14908169W now JC-420506N), 11 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ajit Singh Chauhan (No. 14907157P now JC-420507W), 17 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Chand Yadav (No. 14904907X now JC-420508Y), 01 Apr 2006

Hav Kuldeep (No. 14907408N now JC-420509F), 17 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Susil Kumar Madhu Kumar Vaidya (No. 14905568P now JC-420510W), 01 Apr 2006

Hav K Soundarraji (No. 14909089L now JC-420511Y),
28 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Adesh Kumar Singh (No. 14909000N now JC-
420512F), 19 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shatrughan Sao (No. 14902636M now JC-420513K),
24 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 05 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 14906782K now JC-420514M),
23 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Singh (No. 14906071K now JC-420515P), 01 May
2006

Hav Amar Singh (No. 14907201N now JC-420516X),
01 May 2006

Hav Ved Parkash (No. 14906522Y now JC-420517A),
01 May 2006

Hav Vijay Bahadur Singh (No. 29974846Y now JC-
420518H), 14 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Ris (GD)

Dfr Chhaju Ram Mahla (No. 13700382F now JC-235044A),
21 Apr 2006

ARMoured CORPS

(To be Substantive Risaldar Major)

Risaldar Madan Lal (JC-236641F), 14 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Mar
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Pati Kanta Das (JC-237245Y), 28 Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Mar
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Narender Kumar (JC-237467M), 29 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Pokharmal Dhayal (JC-238277M), 16 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Sanath Kumar (JC-238603K), 07 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Amar Singh Raghwa (JC-236972H), 01 Nov 2005*

Risaldar Md Sardar Muzaaffar Rahman (JC-237870A),
10 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Oct
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Ram Singh Shekhawat (JC-237399K), 02 Nov
2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Satyweer Singh Jhajharia (JC-236735Y), 01 Nov
2005

Risaldar Birawal Singh (JC-237905K), 17 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Parshotam Lal (JC-237750A), 01 Dec 2005

Risaldar Balwinder Singh (JC-238472K), 09 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Dec
2005 without effect on pay and allowances).

Risaldar Mukarab Khan (JC-236015X), 01 Feb 2006

Risaldar Shakeel Akhtar (JC-238311F), 09 Feb 2006

Risaldar Raj Nandan Ray (JC-239103Y), 04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances).

Risaldar Ashok Kumar Singh (JC-237089X), 01 Mar 2006

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 467, dated 29th August 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

(To be Substantive Subedar Major (GD))

Subedar Satnam Singh (JC-174911A), 01 Mar 2006

Subedar Ameer G (JC-179320H), 01 Mar 2006

Subedar Kailash Chandra Rout (JC-184441N), 01 Apr 2006

Subedar Kishan Singh Tanwar (JC-173761H), 01 May 2006

Subedar Gunja Bahadur Rai (JC-108812X), 01 May 2006

Subedar Parma Ram Dogra (JC-178598X), 01 May 2006

Subedar Awadesh Singh (JC-154614L), 01 May 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar Bhagu Ram (JC-840823K), 01 Feb 2006

Naib Subedar Bajrang Lal (JC-448486F), 01 Mar 2006

Naib Subedar Hargyan Singh Suhag (JC-237347N), 01 Mar 2006

Naib Subedar Shankar Singh Khetwal (JC-190792Y), 01 Mar 2006

Naib Subedar Joginder Pandey (JC-402106Y), 01 Mar 2006

Naib Subedar Hukam Singh (JC-840861A), 01 Mar 2006

Naib Subedar Jagdish Chander Chahar (JC-181762A), 01 Apr 2006

Naib Subedar Santokh Singh (JC-840888X), 01 May 2006

Naib Subedar Sachidanandan (JC-840895N), 01 May 2006

Naib Subedar K Krishnan (JC-840904K), 01 May 2006

Naib Subedar Girdhari Ram (JC-840908A), 01 May 2006

To be Substantive Subedar (Clerk)

Naib Subedar (Clk) Vedamuthan Antony (JC-840956A), 01 Mar 2006

Naib Subedar (Clk) Sasi Kumar N (JC-840990A), 01 Apr 2006

Naib Subedar (Clk) Dina Nath Gupta (JC-841035M), 01 Apr 2006

T.K.M. PILLAI
Under Secy.

No. 468, dated 28 August 2006—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Corps of Military Police

To be Subedar Major (MP)

Sub Mohit Chandra Karmakar (JC-818324P), 01 Feb 2006

To be Subedar Major (Clk)

Sub V Lakshmana Perumal (JC-818134H), 01 Feb 2006

To be Subedar (MP)

Nb Sub Ram Karan (JC-818804Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Shyam Bahadur Yadav (JC-818805F), 16 Jan 2006*

Nb Sub Dharanidhar Bhuyan (JC-818809X), 02 Jan 2006*

Nb Sub Satpal (JC-818810M), 02 Jan 2006*

Nb Sub Chander Bhan (JC-818812X), 07 Jan 2006*

Nb Sub Hari Shankar Bharti (JC-818813A), 01 Feb 2006

Nb Sub Udaivir Singh (JC-818814H), 01 Feb 2006

Nb Sub Rama Krishnan K (JC-818815L), 01 Feb 2006

Nb Sub Md Shaukat Ali (JC-818817W), 01 Mar 2006

Nb Sub Rajindra Yadav (JC-818818Y), 03 Mar 2006@

Nb Sub S Settu (JC-818819F), 01 Mar 2006

Nb Sub Kanu Malakor (JC-818820W), 01 Mar 2006

Nb Sub KK Komalan Pillai (JC-818821Y), 01 Mar 2006

Nb Sub Vijay Kumar Ram (JC-818822F), 01 Mar 2006

*(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

@(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub Harekishan Deshwal (JC-818550M), 01 Feb 2006

To be Naib Subedar

Hav Albel Singh (No. 7773717X now JC-819102M), 12 Feb 2006\$

Hav Damoder Singh (No. 7773853N now JC-819103P), 01 Jan 2006

Hav Harinarayan Prasad (No. 7773731K now JC-819104X), 01 Jan 2006

Hav Hakim Singh (No. 7773821L now JC-819105A), 01 Jan 2006

Hav Bharat Mal Yadav (No. 7773960P now JC-819106H), 02 Jan 2006*

Hav Prabin Chandra Dolai (No. 7773885W now JC-819109W), 01 Feb 2006

Hav Rajjan Lal (No. 7774125A now JC-819110L), 08 Feb 2006@

Hav Sat Paul (No. 7773919Y now JC-819111N), 01 Feb 2006

Hav Gokul Chandra Talukdar (No. 7773920N now JC-819112W), 01 Feb 2006

Hav Mohan Prasad Singh (No. 7773665M now JC-819113Y), 01 Mar 2006

Hav Md Taib Ali (No. 7773759K now JC-819114F), 01 Mar 2006

Hav Vishwa Nath Tiwari (No. 7773947L now JC-819115K),
01 Mar 2006

Hav Maharvan Singh Yadav (No. 7773954F now JC-819116M), 07 Mar 2006#

Hav Shiva Raj Singh (No. 7773955K now JC-819117P),
01 Mar 2006

Hav Ashok Kumar (No. 7773969K now JC-819118X),
01 Mar 2006

Hav Sachda Nand Singh (No. 7773684X now JC-819119A),
07 Mar 2006#

\$(Granted seniority with effect from 01 August 2005
without effect on pay and allowances)

*(Granted seniority with effect from 01 Jan 2006 without
effect on pay and allowances)

@(Granted seniority with effect from 01 Feb 2006 without
effect on pay and allowances)

##(Granted seniority with effect from 01 Mar 2006 without
effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav Shyam Singh (No. 7773874K now JC-819107L),
13 Jan 2006*

Hav Biswa Mitra Singh (No. 7773832X now JC-819108N),
01 Feb 2006

*(Granted seniority with effect from 01 Jan 2006 without
effect on pay and allowances)

THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedars

Sub Shish Ram Gurjar (JC-478881K), 01 May 2005

Sub Ram Sharan Singh (JC-479285K), 01 Jun 2005

Sub Dusyant Lal (JC-479232L), 01 Aug 2005

Sub Bharat Singh (JC-478998H), 01 Oct 2005

Sub Surender Singh (JC-479067L), 01 Nov 2005

Sub Mahipal Singh (JC-479373A), 01 Nov 2005

Sub Satender Kumar (JC-479019L), 02 Nov 2005

Sub Ramesh Chandra Singh (JC-479240K), 06 Dec 2005

Sub Prem Singh (JC-479247N), 01 Jan 2006

Sub Ram Pal (JC-479263L), 18 Jan 2006

Sub Chatar Singh Rajput (JC-479243X), 01 Feb 2006

Sub Dharam Pal Yadav (JC-479163A), 09 Mar 2006

Sub Mam Chand Singh (JC-479244A), 01 May 2006

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Ajeet Singh (JC-498052X), 01 Oct 2005

Sub Joginder Singh (JC-498214X), 01 Jun 2006

To be Subedar

Nb Sub Tarsem Singh (JC-499048F), 16 Jan 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 13 Dec
2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surjit Singh (JC-499181K), 03 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dheera Singh (JC-499163F), 01 Apr 2006

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-499221A), 30 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-499296X), 01 May 2006

To be Subedar Major

Sub Surjit Singh (JC-498313A), 01 Feb 2006

To be Subedar

Nb Sub Balbir Singh (JC-499243Y), 26 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 05 Jan
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sher Singh (JC-499107H), 25 Apr 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kulwant Singh (JC-499193Y), 22 Apr 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jasvinder Singh (JC-499207N), 17 Apr 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sardip Singh (JC-499247P), 17 Apr 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances)

To be Subedar Clerk

Nb Sub/Clk Pratap Singh (JC-499189W), 01 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr
2006 without effect on pay and allowances)

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Somanna KG (JC-439136N), 01 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without
effect on pay and allces)

Nb Sub Sajan Varghese V (JC-439118L), 01 Apr 2006*

Nb Sub Jose PJ (JC-439328L), 11 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub C Lokanadha Reddy (JC-439278L), 11 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Gangadhar Kandagal (JC-439335F), 15 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Madivalayya Pujar, SM (JC-439083X), 21 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub N Shanmugam (JC-439285F), 19 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allces)

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sidharth Kumar (No. 3985557A now JC-520349F), 01 Oct 2005

Hav Ram Lal (No. 3985533W now JC-520350W), 01 Oct 2005

Hav Swami Ram (No. 3985117M now JC-520351Y), 30 Oct 2005

Hav Rakesh Bhardwaj (No. 3990089P now JC-520352F), 30 Oct 2005

Hav Prem Lal (No. 3986027X now JC-520353K), 01 Nov 2005

Hav Hoshiar Singh (No. 3986163N now JC-520354M), 01 Nov 2005

Hav Anil Kumar (No. 3986654K now JC-520355P), 01 Dec 2005

Hav Rakesh Kumar (No. 3985913P now JC-520356X), 01 Jan 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub with effect from 30 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Joginder Pal (No. 3986754P now JC-520357A), 09 Jan 2006

Hav Amar Singh (No. 3986792L now JC-520358H), 24 Jan 2006

Hav Ashok Kumar (No. 3986702Y now JC-520359L), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub with effect from 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Chand (No. 3391168Y now JC-520360A), 01 Mar 2006

Hav Vijay Kumar (No. 4003754Y now JC-520361H), 20 Apr 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Krishan Lal (No. 3984762P now JC-520362L), 01 Apr 2006

Hav/Clk Mastan Singh (No. 3984851N now JC-520363N), 01 Apr 2006

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Pooran Singh (No. 2883661K now JC-469872F), 10 Feb 2006/S-19 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 19 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav Surinder Singh (No. 2883234N now JC-469873K), 14 Mar 2006/S-01 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Hav Mahender Singh (No. 2879049H now JC-469874M), 14 Mar 2006/S-16 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 16 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Hav Sher Singh (No. 2886762H now JC-469875P), 18 May 2006/S-01 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces)

Hav Radhe Sham (No. 2886404X now JC-469876X), 13 Apr 2006/S-06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 06 Feb 2006 without effect on pay and allces)

THE SIKH LI

To be Nb Subdar (GD)

Hav Randhir Singh (No. 4462900Y now JC-509372P), 21 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 01 Feb 2006)

Hav Sardul Singh (No. 4463385K now JC-509373X), 24 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 26 Mar 2006)

Hav Tarlok Singh (No. 4466967P now JC-509374A), 04 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 04 Apr 2006)

Hav Hari Singh (No. 4467194M now JC-509375H), 01 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 14 Apr 2006)

Hav Gurmit Singh (No. 4467956P now JC-509376L), 08 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 01 May 2006)

Hav Jaipal Singh (No. 4466664A now JC-509377N), 19 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub (GD) with effect from 03 May 2006)

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Tara Singh (No. 3386657A now JC-499719A), 16 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gurmeet Singh (No. 3386575X now JC-499720P), 22 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh (No. 3387595X now JC-499721X), 17 Jun 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhdev Singh (No. 3387637Y now JC-499722A), 01 May 2006

(To be Nb Sub Clk)

Hav/Clk Jaivir Singh (No. 3385604P now JC-499723H), 30 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Shiv Kumar (No. 15354375X now JC-499724L), 15 Jun 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

THE ASSAM REGIMENT

(To be Nb Sub)

Hav Lalritpui (No. 4362436L now JC-549061K), 02 Mar 2005/01 Dec 2004

Hav Bishnu Bahadur Giri (No. 4356715A now JC-549129A), 24 Oct 2005/01 Jun 2005

Hav Vijya Gurung (No. 4355042K now JC-549131X), 27 Sep 2005/01 Mar 2005

Hav Suren Bora (No. 4355552L now JC-549132A), 24 Oct 2005/01 Jun 2005

Hav Manohari Das (No. 4355145H now JC-549128X), 17 Oct 2005/01 Apr 2005

Hav Puspapal Bhattarai (No. 4357509H now JC-549133H), 10 Nov 2005/01 Apr 2005

Hav BS Recoison Anal (No. 4355864F now JC-549134L), 17 Oct 2005/27 Apr 2005

Hav Khargeswar Chetia (No. 4355953A now JC-549135N), 17 Oct 2005/01 May 2005

Hav Ajit Kumar Singha (No. 4358208L now JC-549136W), 08 Nov 2005/01 May 2005

Hav A Nanda Mohan Singha (No. 4356273M now JC-549137Y), 29 Oct 2005/01 Jun 2005

Hav Uttam Sinha (No. 4358185P now JC-549138F), 21 Nov 2005/01 Jun 2005

Hav Sher Bahadur Chhetri (No. 4356468X now JC-549145X), 05 Nov 2005/01 Aug 2005

Hav Bakul Chandra Saikia (No. 4355577X now JC-549146A), 03 Nov 2005/20 Aug 2005

Hav Ningmario Thangkhol (No. 4357180K now JC-549147H), 03 Nov 2005/20 Aug 2005

Hav Godadhar Basumatary (No. 4360675F now JC-549148L), 14 Nov 2005/20 Aug 2005

Hav Khoisnam Inaobi Singh (No. 4361254L now JC-549149N), 01 Dec 2005/20 Aug 2005

Hav Dhan Singh Marwin (No. 4358912F now JC-549150H), 08 Nov 2005/20 Aug 2005

Hav Adhor Sinha (No. 4358975K now JC-549151L), 12 Nov 2005/20 Aug 2005

Hav Biswamber Sinha (No. 13614920A now JC-549152N), 17 Feb 2006/28 Aug 2005

Hav Soibam Laksena Singh (No. 4355435A now JC-549153W), 22 Nov 2005/01 Sep 2005

Hav Lavingson Anal (No. 4359723K now JC-549154Y), 05 Dec 2005/01 Sep 2005

Hav Atul Bikash Chakma (No. 4356631M now JC-549155F), 17 Oct 2005/01 Sep 2005

Hav Vanlalthing (No. 4355187P now JC-549156K), 26 Jan 2006/01 Sep 2005

Hav T Mangboy Gangte (No. 4355125P now JC-549157M), 07 Nov 2005/01 Sep 2005

Hav Jeet Bahadur Rai (No. 4358372N now JC-549158P), 21 Oct 2005/01 Sep 2005

Hav O Kunja Babu Singha (No. 4357636X now JC-549159X), 16 Dec 2005/01 Oct 2005

Hav Sher Bahadur Chhetri (No. 4354993P now JC-549160M), 01 Dec 2005/24 Oct 2005

Hav Gena H Gangte (No. 4358025P now JC-549161P),
01 Dec 2005/24 Oct 2005

Hav Surendra Kumar Sinha (No. 4354055P now JC-549162X), 23 Nov 2005/01 Nov 2005

Hav KH Rajen Singha (No. 4355630X now JC-549163A),
12 Jan 2006/01 Nov 2005

Hav Holkhosei Haokip (No. 4356531F now JC-549164H),
28 Dec 2005/01 Nov 2005

Hav Gomendra Rajbongshi (No. 4356401Y now JC-549165L), 31 Jan 2006/27 Nov 2005

Hav Tuang Tung Nung Zou (No. 4355180L now JC-549166N), 30 Jan 2006/01 Dec 2005

Hav Dambarudhar Kalita (No. 4357479W now JC-549167W), 06 Dec 2005/01 Dec 2005

Hav Ananda Deb Barma (No. 4356655W now JC-549168Y), 21 Jan 2006/01 Dec 2005

Hav Dhan Bahadur Thapa (No. 4358085K now JC-549169F), 03 Jan 2006/01 Dec 2005

Hav Joy Chandra Singha (No. 4355405H now JC-549179L), 01 Jan 2006

Hav Ranju Kumar Singha (No. 13614722P now JC-549180A), 19 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Rengkhup Tiente (No. 4362929M now JC-549181H),
03 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Hareswar Deka (No. 4356201H now JC-549183N),
17 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Letzakham (No. 4356239M now JC-549184W),
03 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Putul Saikia (No. 4356243P now JC-549185Y), 17 Jan
2006/01 Jan 2006

Hav Santa Bahadur Thapa (No. 4426584A now JC-549186F), 01 Jan 2006

Hav Uttam Kumar Barman (No. 4356739K now JC-549187K), 01 Jan 2006

Hav Bijay Sharma (No. 4356744P now JC-549188M),
01 Jan 2006

Hav Puna Ram Hazarika (No. 4356777A now JC-549189P),
12 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav KS Vanlalchhunga (No. 4357009L now JC-549190K),
01 Jan 2006

Hav L Hiralal Singh (No. 4355786P now JC-549191M),
01 Jan 2006

Hav Kumardhan Singha (No. 4356896W now JC-549192P),
04 Feb 2006/01 Jan 2006

Hav HL Johu Anal (No. 4355901K now JC-549193X),
21 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Yamkhopao (No. 4355303M now JC-549194A),
26 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Suren Kumar Subba (No. 4355613X now JC-549195H), 26 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Vijay Lama (No. 4355778W now JC-549197N),
07 Feb 2006/01 Jan 2006

Hav Tlangtinhranga Poi (No. 4355734Y now JC-549198W), 26 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav SK Kotoi Lamkang (No. 4356118L now JC-549199Y),
26 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Malsorma (No. 4356002P now JC-549200H), 03 Feb
2006/01 Jan 2006

Hav Rongsen Chhujang (No. 4356129X now JC-549201L),
01 Jan 2006

Hav Usit Chandra Patar (No. 4357768L now JC-549202N),
13 Jan 2006/01 Jan 2006

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Inder Singh (No. 4357841Y now JC-549170W),
01 Jan 2006

Hav Clk Des Raj (No. 4357848H now JC-549171Y), 28 Jan
2006/01 Jan 2006

Hav Clk Ramesh Chand (No. 4357850A now JC-549172F),
06 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Clk L Dongzatuang Ngaihte (No. 4354978A now JC-549173K), 28 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Clk Nathan Singh (No. 4357852L now JC-549174M),
03 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Clk Ranbir Singh (No. 4357853N now JC-549175P),
14 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Clk Kailash Nath Dwivedi (No. 4358219X now JC-549176X), 09 Jan 2006/01 Jan 2006

Hav Clk Sudarshan Singh Chauhan (No. 4357883W now
JC-549177A), 18 Jan 2006/01 Jan 2006

To be Nb Sub RT

Rect/RT (Padre) K T Andria Anal (JC-548791H), 28 Sep
2002

Rect/RT (Pandit) Raj Golab Tiwari (JC-549122W), 10 Dec
2005

THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Bansode Anil Eknath (No. 4558354W now JC-569783X), 23 April 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Mar 2006)

Hav Jagsan Singh (No. 4559111W now JC-569784A),
04 April 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 08 Mar 2006)

Hav Tejbhan Yadav (No. 4559285W now JC-569785H),
08 May 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 08 Mar 2006)

Hav Shri Krishna Yadav (No. 4562628M now JC-569786L),
08 May 2006#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 April 2006)

Hav Bhongale Ramlal Shriram (No. 4559661Y now JC-569787N), 03 May 2006##

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Apr 2006)

Hav Om Prakash Singh (No. 4557402X now JC-569788W),
06 May 2006###

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2006)

Hav Bani Singh (No. 4556283A now JC-569789Y), 01 May 2006

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mohan Singh (No. 13618963M now JC-413065A),
01 Feb 2006

Hav Bhim Sen (No. 3986909Y now JC-413066H), 23 Apr 2006

Hav Rakesh Chand Tiwari (No. 13615521H now JC-413067L), 07 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances)

Hav Sunil Kumar Mall (No. 13616791K now JC-413068N),
17 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Mar 2006 without effect on pay & allowances)

Hav Rakesh Singh Bhandari (No. 13617791W now JC-413069W), 01 May 2006

Hav Gobin Bor Gohain (No. 13617974M now JC-413070L),
17 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (CLK)

Hav (Clk) Sumer Singh (No. 13615789L now JC-413062M),
01 Jun 2006

Hav (Clk) Ashok Kumar Sharma (No. 13615925L now JC-413063P), 01 Jun 2006

Hav (Clk) Shankar Ram Puniya (No. 13616670H now JC-413064X), 01 Jun 2006

1 GR

To be Nb Sub

Hav Surendra Bahadur Gurung (No. 5043739H now JC-602660N), 20 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Oct 2005)

Hav Jit Bahadur Thapa (No. 5043579N now JC-602661W),
18 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Oct 2005)

Hav Bir Bahadur Gurung (No. 5043551N now JC-602662Y),
19 Dec 2005

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Narayan Bahadur Thapa (No. 5043620Y now JC-602663F), 25 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Dec 2005)

Hav Laxman Thapa (No. 5043490F now JC-602664K),
11 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Dec 2005)

Hav Purna Bahadur Budhathoki (No. 5043492M now JC-602665M), 11 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Dec 2005)

Hav/Clk Charan Singh (No. 5043058A now JC-602666P),
02 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Jan 2006)

Hav/Clk Dharam Pal (No. 5043060X now JC-602667X),
01 Jan 2006

Hav Sanjay Kumar Gurung (No. 5043588P now JC-602668A), 13 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Tek Bahadur Rana (No. 5043356W now JC-602669H),
31 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 29 Nov 2005)

Hav Megh Bahadur Shrestha (No. 5043757L now JC-602670X), 06 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Dec 2005)

CHM Raj Kumar Thapa (No. 5345914K now JC-602671A), 18 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Jan 2006)

CHM Deepak Kumar Thapa (No. 5043653K now JC-602672H), 18 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Jan 2006)

CHM Lal Bahadur Pun (No. 5043521W now JC-602673L), 15 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Jan 2006)

CQMH Bhagi Man Gurung (No. 5043650W now JC-602674N), 06 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Feb 2006)

CHM Hira Bahadur Thapa (No. 5043639X now JC-602675W), 06 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Dhan Prasad Gurung (No. 5043788L now JC-602676Y), 10 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Ran Bahadur Thapa (No. 5043309Y now JC-602677F), 20 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2005)

CHM Taken Singh Gurung (No. 5043711H now JC-602678K), 05 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Dec 2005)

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 5043506P now JC-602679M), 01 Feb 2006

Hav Resham Bahadur Thapa (No. 5043716F now JC-602680F), 01 Feb 2006

Hav Gagan Singh Thapa Magar (No. 5043574P now JC-602681K), 01 Feb 2006

Hav Tap Bahadur Rana (No. 5043575X now JC-602682M), 01 Feb 2006

Hav Gyan Bahadur Rana (No. 5043731W now JC-602683P), 01 Feb 2006

Hav Mek Bahadur Thapa (No. 5043997H now JC-602684X), 10 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Tol Prasad Rana (No. 5043514A now JC-602686H), 27 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay & allowances wef 09 Feb 2006)

Hav Budhi Bahadur Darlami (No. 5043843W now JC-602687L), 01 Apr 2006

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav T Vishnu Vardhan Reddy (No. 2592753Y now JC-439693M), 25 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Reji C (No. 3989636M now JC-439698L), 16 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Veerabhadra Gouda Patil (No. 2590799H now JC-439701A), 10 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Feb 2006 without effect on pay & allowances)

Hav S Manoharan (No. 2587528A now JC-439704N), 04 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Mar 2006 without effect on pay & allowances)

Hav Surendran KM (No. 2589828A now JC-439702H), 10 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances)

Hav Devaresh L Hottenavar (No. 2590168A now JC-439705W), 6 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances)

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD)

Hav Jawahar Lal Ram (No. 4262508P now JC-559606K), 16 Mar 2006/01 Jun 2005 (Notional Seniority)*

*(Granted notional seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 June 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Brajesh Dutt Pathak (No. 4263440L now JC-559607M), 15 Jan 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Tej Narayan Mahto (No. 4263958X now JC-559608P), 17 Feb 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Johnson Guna Guria (No. 4266956Y now JC-559609X),
27 Mar 2006/20 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Birbal Haiburu (No. 427204K now JC-559610M),
10 Feb 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allces.)

CHM Amrit Tirkey (No. 4263009M now JC-559611P),
11 Mar 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

CHM Laxman Murmu (No. 4263356L now JC-559612X),
05 Mar 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Kamakshya Prasad Mohanty (No. 4262680W now JC-559613A), 08 Mar 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Ukey Rajendra Jaswant Singh (No. 4269285L now JC-559614H), 11 Mar 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Jagdish Arya (No. 4264024N now JC-559615L),
05 Mar 2006/02 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Rikada Kondagori (No. 4263022W now JC-559616N),
05 Mar 2006/08 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 08 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

CQMH Raj Kumar Thakur (No. 4265736H now JC-559617W), 11 Mar 2006/11 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

CHM Shivji Rai (No. 4264577K now JC-559618Y),
13 Mar 2006/24 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

CHM Chaina Ram (No. 4264566X now JC-559619F),
22 Feb 2006/25 Jan 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 Jan 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Hareshwar Mahato (No. 4262611A now JC-559620W),
04 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Amod Kumar (No. 4267676X now JC-559621Y),
16 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Pramod Kumar Singh (No. 4266144L now JC-559622F),
11 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Krishna Autar Verma (No. 4264900N now JC-559623K),
05 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Shri Kant Singh (No. 8031272Y now JC-559624M),
22 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

CQMH Bichitra Nand Pani (No. 4265477L now JC-559625P),
05 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Awadhesh Kumar Singh (No. 4262484W now JC-559626X), 13 Mar 2006/04 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 04 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Jermas Kerketta (No. 4262924Y now JC-559627A),
23 Mar 2006/19 Feb 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 Feb 2006 without effect on pay and allces.)

CHM Om Prakash Gupta (No. 4261657W now JC-559628H),
13 Mar 2006/01 Mar 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Ramesh Mishra (No. 4261929L now JC-559629L),
18 April 2006/08 Mar 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 08 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Birsa Lohra (No. 4263758H now JC-559630A),
13 Apr 2006/01 Mar 2006 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2006 without effect on pay and allces.)

LADAKH SCOUTS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Phunchok Namgial (No. 9923370W now JC-588394M),
10 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Sher Singh (No. 9923382L now JC-588395P),
28 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Dorje Wangial (No. 9923405F now JC-588396X),
10 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Rigzin Angchok (No. 9923418Y now JC-588397A),
28 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Tsetan Tashi (No. 9923438M now JC-588398H),
10 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Chhering Angchok (No. 9922866Y now JC-588399L),
18 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Phunchok Angchok (No. 9923072A now JC-588400P),
10 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Tsering Angdus (No. 9923510X now JC-588401X),
14 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Thinles Giacho (No. 9923512H now JC-588402A),
16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Skarma Choas (No. 9923522M now JC-588403H),
08 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Stanzin Wangtak (No. 9923524X now JC-588404L),
31 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Ahmad (No. 9923531N now JC-588405N), 23 Jan 2006/
01 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority without effect on pay an
allowances.)

Hav Tsewang Dorjay (No. 9923535K now JC-588406W),
17 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Thugstan Rabgas (No. 9923537P now JC-588407Y),
09 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Mohd Yousuf (No. 9923538X now JC-588408F),
09 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Tashi Chafail (No. 9923539A now JC-588410Y),
18 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav Padma Dorje (No. 9923548F now JC-588411F),
04 Apr 2006/01 Jan 2006*

Hav Tashi Angchok (No. 9923553M now JC-588413M),
25 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Stanzen Angchok (No. 9923554P now JC-588415X),
03 May 2006/01 May 2006*

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk Karam Singh (No. 9922864N now JC-588409K),
22 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Clk Karam Chand (No. 9922921K now JC-588412K),
27 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Clk Tsetan Thinles (No. 9923415L now JC-588414P),
06 May 2006/01 May 2006*

*(Granted ante date seniority without effect on pay an
allowances.)

THE JAT REGIMENT

(To be Nb Sub)

Hav Bhagwan Singh (No. 3179519M now JC-489850K),
04 Apr 2006

Hav Ishwar Singh (No. 3179856F now JC-489851M),
10 Apr 2006

Hav Bharat Singh (No. 3182452K now JC-489852P), 28 Apr
2006

Hav Ajit Singh (No. 3179858M now JC-489853X), 01 May
2006

Hav Naresh Kumar (No. 3177322X now JC-489854A),
04 May 2006

Hav Ram Pal (No. 3178383F now JC-489855H), 09 June
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Vijender Singh (No. 3179228M now JC-489856L),
01 June 2006

Hav Rakesh Kumar (No. 3182908X now JC-489857N), 01
June 2006

DIWAKAR
Under Secy.

No. 469, dated 30th August, 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent)

SK Satsangi (MR-03559H) (75650H)—09 Sept 2005 with
notional seniority without effect on pay & pension from 01
March 2005.

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (P)

ARMY BRANCH

No. 470, dated 31st August 2006.—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(Capt to be Maj)

IC-46935, Sudesh Ramesh Desai, JAG

IC-53881, Avinash Sharma, MF

IC-56317, Naresh Kumar, Engrs
 IC-64819, Nishit Mishra, EME
 IC-64954, Ravinder Negi, EME
 IC-64955, Kapil Sanawar, EME
 IC-64956, Mandeep Singh Nijjar, Engrs
 IC-64958, Rajesh Sharma, Sigs
 IC-64959, Dinesh Singh Mahendra Singh, Engrs
 IC-64960, Vikram Khurmi, Engrs
 IC-64962, Kulkarni Ajit Vijay, EME
 IC-64963, Gaurav Agarwal, EME
 IC-64964, Vinod Kumar Vijayan, Engrs
 IC-64965, Shailendra Singh, Engrs
 IC-64966, Mishra Akhilesh Kanhayalal, Engrs

—16 Dec 2004

SPECIAL COMMISSION

(Capt to be Maj)

SC-00044, Rajeevan CV, Engrs

—16 Dec 2004

PERMANENT COMMISSION(SL)

(Capt to be Maj)

SL-4658, Harihar Singh, Engrs
 SL-4659, Anant Kumar, EME
 SL-4660, Manikandan P, AOC
 SL-4661, JS Jantwal, Sigs

—15 Apr 2006

PERMANENT COMMISSION

(Lt Col (TS) to Lt Col)

IC-35081, VC Gupta, Engrs
 IC-37255, Ashish Dass, Inf

—16 Dec 2004

(Maj to Lt Col)

IC-44214, Manjeet Singh, AOC
 IC-45072, Joseph Purakel, Arty
 IC-45395, PVV Vidhyasagar, EME

—16 Dec 2004

IC-46935, Sudesh Ramesh Desai, JAG

—17 Apr 2006

IC-51233, Samir Srivastava, Inf
 SL-4663, SS Gadkari, APTC

—13 Jun 2005

PERMANENT COMMISSION(SL)

(Major to Lt Col)

SL-04057, Ganga Singh, SL B/R
 SL-04058, Vinod Kumar Lama, SL QM

SL-04059, Gurbux Singh, SL TOT
 SL-04061, Rolla Sankara Reddy, SL TOT
 SL-04062, Balasubramanian AP, SL B/R
 SL-04063, Bhupal Singh, SL QM
 SL-04065, Prem Singh, SL E/M
 SL-04066, Virendra Prasad Singh, SL TOT
 SL-04067, Satya Deo, SL TOT
 SL-04068, Yallappa Sannammanavar, SL B/R
 SL-04069, K Dathatraya Murthy, SL B/R
 SL-04070, Rajeev Pooleri, SL B/R
 SL-04071, Laxman Wasudeorao Gale, SL RO
 SL-04072, Rajan M, SL AE
 SL-04073, Shaju NT, SL RO
 SL-04074, Ramesh Chandra Swain, SL ARCH
 SL-04075, Ram Kishan, SL AE
 SL-04076, Anand Kumar Pandey, SL RO
 SL-04077, S Kailasam, SL QM
 SL-04079, Sunil Kumar P, SL B/R
 SL-04081, Brijendra Singh, SL RO
 SL-04082, Subhash Chander Yadav, SL RO
 SL-04083, BL Bhargava, SL RO
 SL-04084, Bhupinder Pal Singh, SL RO
 SL-04085, Puran Singh Rakwal, SL RO
 SL-04086, Sunil Pankaj Sharma, SL RO
 SL-04087, Rajan EK, SL RO
 SL-04088, Krishna Kumar, SL RO
 SL-04089, AK Panigrahi, SL RO
 SL-04090, Suresh Kumar Dogra, SL QM
 SL-04091, Kangara Srihari, SL RO
 SL-04092, Ranjodh Singh, SL RO
 SL-04093, Devi Dayal Bhagat, SL RO
 SL-04094, Mohan R, SL ER
 SL-04095, V Duraisingam, SL QM
 SL-04096, Om Prakash Yadav, SL QM
 SL-04097, Dharm Jit, SL QM
 SL-04098, Benudhar Saikia, SL QM
 SL-04099, Jayapalan EK, SL TEO
 SL-04100, Dev Giri, SL RO
 SL-04101, Rajbir Singh, SL RO
 SL-04104, Anwar Ali, SL QM
 SL-04105, Amitabh Prakash Rai, SL QM
 SL-04106, Satnam Singh Gill, SL QM

SL-04107, Yuvraj Lama, SL QM
 SL-04108, Dhim Sen, SL CIPH
 SL-04109, Dya Ram, SL RO
 SL-04110, Pusapati NM Raju, SL AE
 SL-04112, OmPrakash, SL AE
 SL-04113, Gurmit Singh, SL TEO
 SL-04114, Sohan Singh Thapa, SL AE
 SL-04115, Rajendra Singh Panwar, SL B/R
 SL-04116, E Panneer Selvan, SL B/R

—17 Apr 2006

SHRI RAM BAIRWA
 Dy Dir
 MS-8(C)

ARMY BRANCH

No. 471, dated 31st August 2006.—The undermentioned officers are awarded the following punishment by the Commandant, MCEME.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-47955Y, Major WR Khan, EME

- (a) To take rank and precedence as if his appointment as substantive Major bore date the eleventh day of Jan 2000.
- (b) To be severely reprimanded.

—26 Apr 2003

IC-50094Y, Major RS Kohli, EME

- (a) To take rank and precedence as if his appointment as substantive Major bore date the fifteenth day of Dec 2001.
- (b) To be severely reprimanded.

—26 Apr 2003

The undermentioned officers are awarded the following punishment by the GCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-40258, Lt col (TS) PPS Thind, Inf

- (a) To forfeit one year past service for the purpose of pension, and
- (b) To be severely reprimanded.

—07 Jan 2005

IC-39167A, Major P Ahluwalia, Engrs.

- (a) To forfeit five year's service for the purpose of promotion.
- (b) To forfeit five year's past service for the purpose of pension and
- (c) To be 'severely reprimanded'.

—25 Jul 2003

IC-40234, Lt Col (TS) Arun Kumar, Arty.

- (a) To forfeit five year's past service for the purpose of pension.
- (b) To be severely reprimanded.

—03 Feb 2005

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the GOL MOD.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-25810, Major HS Randhawa, Engr.

TERMINATION FROM SERVICE BY WAY OF DISMISSAL.

—27 Jan 2005

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the SGCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-50430, Maj Sanjay Ahlawat, ASC.

- (a) To forfeit two years service for the purpose of promotion.
- (b) To forfeit two years of past service for the purpose of pension, and
- (c) To be severely reprimanded.

—10 Jan 2004

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the GOC ATK&K Area.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-52768K, Capt G Gray, ADA.

To forfeit three months service for the purpose of promotion.

—24 Feb 2005

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the GOC DELHI AREA.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-46963, Major Vydyanathan H, Int.

- (a) To forfeit six months service for the purpose of promotion.
- (b) To be severely reprimanded.

—31 Mar 2005

SHRI RAMBAIRWA

Dy. Dir.

MS-8(C)

ARMY BRANCH

The President is pleased to make the following promotions :—

* REGULAR ARMY

INFANTRY

LADAKH SCOUTS

CORRIGENDUM

No. 472, dated 28th August 2006.—In Ministry of Defence Notification No. 179, dated 25 Feb 2002 published in Gazette of India No. 13, dated 30th Mar 2002 under the heading "Regular Army" sub heading 'Ladakh Scouts' below to be substantive Subedars on Page No. 459.

- (a) For—JC-588016N Nb Sub Tashi Namgial, 01 Jan 2001.
Read—JC-588016N Nb Sub Tashi Namgial, 26 Sep 2000/
01 Jul 2000*
- (b) For—JC-588017W Nb Sub Sonam Angchok, 01 Jan 2001.
Read—JC-588017W Nb Sub Sonam Angchok, 21 Jul
2000/01 Jul 2000*
- (c) For—JC-588018Y Nb Sub Rigzin Norphel, 01 Jan 2001.
Read—JC-588018Y Nb Sub Rigzin Norphel, 01 Jul 2000.
- (d) For—JC-588029L Nb Sub Rigzin Dorje, 01 Jan 2001.
Read—JC-588029L Nb Sub Rigzin Dorje, 01 Jul 2000.

DIWAKAR
Under Secy

No. 473, dated 31st August 2006.—

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 27 Aug 2005 under the heading "Regular Army,

Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" wef 16 Dec 2004 the following amendment is made :—

For—IC-47649, JS Babbar, Arty

Read—Blank.

SHRI RAMBAIRWA

Dy. Dir.

MS-8(C)

CORRIGENDUM

No. 474, dated 28th August 2006.—In Ministry of Defence Notification No. 14 dated 08 Apr 2006 published in Gazette of India No. 181, dated 08 Mar 2006 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below 'To be Naib Risaldar' Page No. 468.

To be Naib Risaldar

- (a) For—

Dfr G Karuppa Samy (No. 1071156X now JC-241473X),
15 Sep 2005*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

- (b) Read—

Dfr G Karuppa Samy (No. 1071156X now JC-241473X),
15 Sep 2005*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Aug 2004
without effect on pay and allowances).

- (c) For—

Dfr Khazan Singh (No. 1072466P now JC-241492H),
27 Oct 2005*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2005
without effect on pay and allowances).

- (d) Read—

Dfr Khazan Singh (No. 1072466P now JC-241492H),
27 Oct 2005*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2004
without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS

Under Secy.